

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 16—दिसम्बर 22, 2017 (अग्रहायण 25, 1939)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 16—DECEMBER 22, 2017 (AGRAHAYANA 25, 1939)

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

---

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2017

थल सेना विभाग

सं 272, दिनांक 20 नवम्बर 2017—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कमीशन की ज्येष्ठता

डी एस—12613एम कप्तान (सुश्री) अलिशा ठाकुर

— 09—05—2016

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 09—11—2015 से दी जाती है। इसमें 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

12 नवम्बर 2016 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

## कैप्टन के पद पर (परख पर)

डी एस-12632एक्स कप्तान संदीप सिंह रियाल — 28-12-2016

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28-12-2013 से दी जाती है। इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

19 अगस्त 2017 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस-12620एच कप्तान पुनीत डांग — 28-12-2016

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28-12-2013 से दी जाती है। इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

19 अगस्त 2017 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अधीन और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं 10(3)(प)/05/डी मेड, 28 अक्तूबर 2005 यथासंशोधित के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 05 वर्ष के लिए करते हैं:

## नियमित सेना

## सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

## (अल्पकालीन) कमीशन

## कैप्टन के पद पर (परख पर)

| निजी संख्या        | रैंक व नाम                | कमीशन की तिथि |
|--------------------|---------------------------|---------------|
| डी एस-12646एक्स    | कप्तान मोहम्मद शरीफ       | 21-03-2017    |
| डी एस-12647ए       | कप्तान राहुल              | 21-03-2017    |
| डी एस-12648एच      | कप्तान शुभम शर्मा         | 21-03-2017    |
| डी एस-12649एल      | कप्तान यादव रेखा चिंतामणि | 21-03-2017    |
| डी एस-12650ए       | कप्तान सुनिल कुमार सिंह   | 21-03-2017    |
| डी एस-12651एच      | कप्तान नोनी शर्मा         | 21-03-2017    |
| डी एस-12652एल      | कप्तान प्रगति शर्मा       | 21-03-2017    |
| डी एस-12653एन      | कप्तान आनन्द ए एन         | 21-03-2017    |
| डी एस-12654डब्ल्यू | कप्तान रिशु कौल           | 21-03-2017    |
| डी एस-12655वाई     | कप्तान सपना जोणसन         | 29-04-2017    |

के जी कुमार देवैया  
ब्रिगेडियर  
डीडीजीडीएस (पी)

## राष्ट्रीय कैडेट कोर/एम एस (डी)

सं. 273, दिनांक 21 नवम्बर 2017—नीचे दिए गए कुलपतियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर में अवैतनिक कर्नल का रैंक दिया जाता है और उन्हें उनके संबंधित विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि तक के लिए कर्नल कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है :—

| कुलपति का नाम                     | निदेशालय का नाम | विश्वविद्यालय का नाम                   | कुलपति पद पर नियुक्ति की तारीख |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| प्रो. (डॉ.) सुरंजन दास कुलपति     | पश्चिम बंगाल    | जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता         | 16.07.2015                     |
| प्रो. (डॉ.) शंकर कुमार घोष कुलपति | पश्चिम बंगाल    | कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी, नाडिया | 21.12.2016                     |
| प्रो. (डॉ.) बयजू जॉन कुलपति       | म. प्र. एवं छग  | मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर            | 04.03.2015                     |

| कुलपति का नाम                       | निदेशालय का नाम | विश्वविद्यालय का नाम                                   | कुलपति पद पर नियुक्ति की तारीख |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| प्रो० (डॉ.) देवानंद बी शिंदे कुलपति | महाराष्ट्रा     | शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर                            | 18.06.2015                     |
| डॉ० सिद्धार्थ विनायक प. काणे कुलपति | महाराष्ट्रा     | राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ, नागपुर     | 08.04.2015                     |
| प्रो० मूरलीधर चांदेकर कुलपति        | महाराष्ट्रा     | संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती          | 02.06.2016                     |
| डॉ० शशिकला वांनजारी कुलपति          | महाराष्ट्रा     | एस एन डी टी महिला विद्यापीठ, मुंबई                     | 03.07.2016                     |
| प्रो० बी ए चोपाडे कुलपति            | महाराष्ट्रा     | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद | 04.06.2014                     |

ए के पान्डेय  
ब्रिगे.  
उप महानिदेशक (एम एस)

सेना सचिव शाखा

सं. 274, दिनांक 22 नवम्बर 2017—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नती करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

| आई सी, रैंक, नाम व आर्म                       | ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| वी-00442 ए/ब्रिग. प्रमोद बत्रा,<br>आर वी सी   | 01.04.16                               |
| वी-00447 ए/ब्रिग. बी पारासानल्लि,<br>आर वी सी | 15.07.16                               |

देबाशिस प्रधान  
उपनिदेशक एम एस (एक्स)

थलसेना विभाग

सं. 275, दिनांक 23 नवम्बर 2017—थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नती करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

ले० कर्नल (एवं समकक्ष) से कर्नल (एवं समकक्ष) पद पर

| निजी संख्या       | रैंक      | नाम                | पदोन्नती की तिथि                                                                                     |
|-------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| डीआर-10399डब्ल्यू | ले. कर्नल | जे सेनगुप्ता       | 15-07-2008, (वैकल्पिक वरीयता 15-07-2008 से दी जाती है जोकि वेतन और पेंशन पर प्रभावी नहीं होगी।)      |
| डी आर-10382एच     | ले. कर्नल | एच एस संधू         | 12-05-2008 (परन्तु वैकल्पिक वरीयता 05-05-2008 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी) |
| डी आर-10426पी     | ले. कर्नल | विनीत शर्मा        | 06-06-2008 (परन्तु वैकल्पिक वरीयता 06-05-2008 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी) |
| डी आर-10436वाई    | ले. कर्नल | पी के चट्टोपाध्याय | 06-06-2008 (परन्तु वैकल्पिक वरीयता 06-06-2008 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी) |

## कैप्टन से मेजर के पद पर

| निजी संख्या  | पद     | नाम                     | पदोन्नति की तिथि |
|--------------|--------|-------------------------|------------------|
| डीआर-10741एल | कप्तान | आशिष गोयल               | 23-12-16         |
| डीआर-10742एन | कप्तान | रजत लंझारा              | 27-12-16         |
| डीआर-10759एफ | कप्तान | (सुश्री) प्रनीत के राणा | 05-02-17         |

थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

## नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

## कैप्टन से मेजर के पद पर

| निजी संख्या        | पद     | नाम                      | पदोन्नति की तिथि |
|--------------------|--------|--------------------------|------------------|
| डी एस-12556डब्ल्यू | कप्तान | एनसन जोस                 | 13.07.2016       |
| डी एस-12563एम      | कप्तान | किशोर सिंह भंडारी        | 13.07.2016       |
| डी एस-12470एक्स    | कप्तान | (सुश्री) प्रियंका मालवीय | 18.11.2016       |
| डी एस-12477एफ      | कप्तान | राहुल सैनी               | 12.01.2017       |

के जी कुमार दिव्यया  
ब्रिगेडियर  
डीडीजीडीएस (पी)

## राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 276, दिनांक 24 नवम्बर 17—राष्ट्रपति निम्नलिखित एन सी सी पूर्णकालिक महिला अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं । उनके पदोन्नति की तिथि व रैंक सम्बंधी वरिष्ठता उनके नाम के सामने दी गई हैं :—

एन सी सी पूर्णकालिक महिला अधिकारी

(स्थायी कमीशन प्राप्त - कैप्टन से मेजर)

| नम्बर/रैंक और नाम                             | पदोन्नति की तिथि |
|-----------------------------------------------|------------------|
| एनसीसी जीडी पीसी-12527 कैप्टन शीला के मैथ्यु  | 05 जनवरी 2017    |
| एनसीसी जीडी पीसी-12529 कैप्टन गीता श्रीवास्तव | 21 दिसम्बर 2016  |
| एनसीसी जीडी पीसी-12530 कैप्टन पूर्णिमा एस     | 27 दिसम्बर 2016  |
| एनसीसी जीडी पीसी-12531 कैप्टन रेहाना परवीन    | 27 दिसम्बर 2016  |
| एनसीसी जीडी पीसी-12533 कैप्टन अनुजा चतुर्वेदी | 27 दिसम्बर 2016  |
| एनसीसी जीडी पीसी-12534 कैप्टन कृष्णा दुबे     | 24 दिसम्बर 2016  |
| एनसीसी जीडी पीसी-12535 कैप्टन माया देवेलकर    | 10 जनवरी 2017    |
| एनसीसी जीडी पीसी-12536 कैप्टन लवी शर्मा       | 27 दिसम्बर 2016  |
| एनसीसी जीडी पीसी-12537 कैप्टन पुष्पा गिरिधर   | 27 दिसम्बर 2016  |
| एनसीसी जीडी पीसी-12538 कैप्टन दुर्गा सुरेश    | 27 दिसम्बर 2016  |
| एनसीसी जीडी पीसी-12539 कैप्टन प्रीतपाल कौर    | 27 दिसम्बर 2016  |
| एनसीसी जीडी पीसी-12540 कैप्टन संतोष खत्री     | 27 दिसम्बर 2016  |

एनसीसी जीडी पीसी-12541 कैप्टन वी कलईवानी

27 दिसम्बर 2016

एनसीसी जीडी पीसी-12543 कैप्टन बर्खा गुरबक्षाणी

27 दिसम्बर 2016

रविन्द्र कुमार

कर्नल

निदेशक एम एस (ए)

सेना शाखा

सं. 277, दिनांक 27 नवम्बर 2017—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

जाट रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

|                                                                                                      |                         |                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| सूबेदार                                                                                              | जगबीर सिंह              | (जेसी-490142 के)      | 01 जनवरी 2015   |
| सूबेदार                                                                                              | बलजीत सिंह              | (जेसी-489582 एल)      | 02 फरवरी 2015*  |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)  |                         |                       |                 |
| सूबेदार                                                                                              | प्रमोद कुमार            | (जेसी-489770 एम)      | 01 मार्च 2015   |
| सूबेदार                                                                                              | सुरेन्द्र पाल सिंह राठी | (जेसी-489663 एल)      | 01 अप्रैल 2015  |
| सूबेदार                                                                                              | बिजेन्द्र सिंह          | (जेसी-489650 एन)      | 01 अप्रैल 2015  |
| सूबेदार                                                                                              | जयपाल सिंह              | (जेसी-489759 एन)      | 01 अप्रैल 2015  |
| सूबेदार                                                                                              | संजीव कुमार             | (जेसी-489835 पी)      | 01 अप्रैल 2015  |
| सूबेदार                                                                                              | राम निवास सोलंकी        | (जेसी-489807 एच)      | 01 जून 2015     |
| सूबेदार                                                                                              | उमेद सिंह               | (जेसी-489836 एक्स)    | 27 जुलाई 2015*  |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जायेगी)  |                         |                       |                 |
| सूबेदार                                                                                              | डाल चन्द                | (जेसी-489921 ए)       | 01 अगस्त 2015   |
| सूबेदार                                                                                              | अजीत सिंह               | (जेसी-489853 एक्स)    | 01 सितम्बर 2015 |
| सूबेदार                                                                                              | अनिल कुमार बगरिया       | (जेसी-489975 एफ)      | 01 अक्टूबर 2015 |
| सूबेदार                                                                                              | धर्मवीर                 | (जेसी-490070 एल)      | 01 अक्टूबर 2015 |
| सूबेदार                                                                                              | रनवीर सिंह जाट          | (जेसी-490035 एच)      | 02 नवम्बर 2015* |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जायेगी) |                         |                       |                 |
| सूबेदार लिपिक                                                                                        | अवय कुमार स्वाई         | (जेसी-488879 ए)       | 03 फरवरी 2012*  |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2011 से दी जायेगी) |                         |                       |                 |
| सूबेदार लिपिक                                                                                        | रोहिताश कुमार मावी      | (जेसी-488833 एक्स)    | 02 जुलाई 2012*  |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)  |                         |                       |                 |
| सूबेदार लिपिक                                                                                        | आदर्श कुमार             | (जेसी-489231 डब्ल्यू) | 19 जनवरी 2013*  |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)  |                         |                       |                 |
| सूबेदार लिपिक                                                                                        | रनधीर                   | (जेसी-489648 डब्ल्यू) | 01 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार लिपिक                                                                                        | आर एन जे पी राजू        | (जेसी-489969 एन)      | 01 जून 2014     |
| सूबेदार लिपिक                                                                                        | ए वीरासामी              | (जेसी-490389 एल)      | 01 अप्रैल 2015  |
| सूबेदार लिपिक                                                                                        | सुखदेव सिंह             | (जेसी-490390 ए)       | 01 जुलाई 2015   |
| सूबेदार लिपिक                                                                                        | पुरुषोत्तमन पनक्कडा     | (जेसी-490450 के)      | 01 अक्टूबर 2015 |
| सूबेदार लिपिक                                                                                        | राजेश कुमार शर्मा       | (जेसी-490586 एन)      | 03 मार्च 2016*  |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2016 से दी जायेगी)  |                         |                       |                 |
| सूबेदार लिपिक                                                                                        | मधु सूधनन नायर वी       | (जेसी-490587 डब्ल्यू) | 01 अगस्त 2016   |

|                                                                                                      |                 |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| सूबेदार संगीतकार                                                                                     | बनवीर कुमार     | (जेसी-489767 एम) | 05 मई 2011*    |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी) |                 |                  |                |
| सूबेदार संगीतकार                                                                                     | रमेश सिंह       | (जेसी-489607 एम) | 21 फरवरी 2013* |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)  |                 |                  |                |
| सूबेदार संगीतकार                                                                                     | चन्दन सिंह राणा | (जेसी-489970 एच) | 21 फरवरी 2013* |
| *(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)  |                 |                  |                |

## नायब सूबेदार के रैंक में

|                                                                                                       |                     |                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|
| हवलदार                                                                                                | नरेन्द्र सिंह       | (सं. 3188383 पी अब जेसी-491631 एफ)      | 27 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी) |                     |                                         |                  |
| हवलदार                                                                                                | ज्ञानेन्द्र कुमार   | (सं. 3189233 एल अब जेसी-491632 के)      | 31 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी) |                     |                                         |                  |
| हवलदार                                                                                                | शिवजी राम           | (सं. 3188450 पी अब जेसी-491633 एम)      | 01 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 नवंबर 2016 से दी जायेगी)   |                     |                                         |                  |
| हवलदार                                                                                                | हंस राम             | (सं. 3188661एक्स अब जेसी-491634 पी)     | 17 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)  |                     |                                         |                  |
| हवलदार                                                                                                | जीत सिंह            | (सं. 3189656 वाई अब जेसी-491635 एक्स)   | 26 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी) |                     |                                         |                  |
| हवलदार                                                                                                | लक्ष्मण राम रियाड   | (सं. 3188568 डब्ल्यू अब जेसी-491636 ए)  | 27 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी) |                     |                                         |                  |
| हवलदार                                                                                                | फतेह सिंह           | (सं. 3188769 पी अब जेसी-491637 एच)      | 27 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी) |                     |                                         |                  |
| हवलदार                                                                                                | अरविंद सिंह         | (सं. 3189322 के अब जेसी-491638 एल)      | 17 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी) |                     |                                         |                  |
| हवलदार                                                                                                | अशोक कुमार          | (सं. 3194780 के अब जेसी-491639 एन)      | 01 जनवरी 2017    |
| हवलदार                                                                                                | कुलदीप              | (सं. 3188158 ए अब जेसी-491640 एच)       | 01 जनवरी 2017    |
| हवलदार                                                                                                | गोवर्धन सिंह मूण्ड  | (सं. 3188277 डब्ल्यू अब जेसी-491641 एल) | 01 जनवरी 2017    |
| हवलदार                                                                                                | अजीत सिंह           | सं. 3188886 ए अब जेसी-491622 ए)         | 09 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी)   |                     |                                         |                  |
| हवलदार                                                                                                | सीता राम            | सं. 3189368 एम अब जेसी-491623 एच)       | 02 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)  |                     |                                         |                  |
| हवलदार                                                                                                | भीर्यो राम चौधरी    | सं. 3190577 डब्ल्यू अब जेसी-491624 एल)  | 12 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)  |                     |                                         |                  |
| हवलदार                                                                                                | सुरेश चन्द्र        | सं. 3189846 एल अब जेसी-491625 एन)       | 01 दिसम्बर 2016  |
| हवलदार                                                                                                | प्रेमा राम          | सं. 3189908 ए अब जेसी-491626 डब्ल्यू)   | 01 दिसम्बर 2016  |
| हवलदार                                                                                                | राम सजीवान प्रजापति | सं. 3190515 डब्ल्यू अब जेसी-491627 वाई) | 01 दिसम्बर 2016  |
| हवलदार                                                                                                | जय कुमार            | सं. 3186046 एफ अब जेसी-491628 एफ)       | 24 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी) |                     |                                         |                  |
| हवलदार लिपिक                                                                                          | शिव बालक सिंह       | सं. 3189642 वाई अब जेसी-491629 के)      | 04 नवम्बर 2016*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)  |                     |                                         |                  |
| हवलदार लिपिक                                                                                          | राजेन्द्र कुमार     | सं. 3191343 वाई अब जेसी-491630 वाई)     | 22 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)  |                     |                                         |                  |

|                                                                                                       |                    |                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|
| हवलदार                                                                                                | कुलदीप सिंह        | सं. 3205095 एफ अब जेसी-491682 पी)        | 30 मार्च 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | लाल चंद            | सं. 3188427 एफ अब जेसी-491683 एक्स)      | 01 जनवरी 2017    |
| हवलदार                                                                                                | देवेन्द्र कुमार    | सं. 3189235 डब्ल्यू अब जेसी-491684 ए)    | 22 मार्च 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | वजीर सिंह          | सं. 3187767 एक्स अब जेसी-491685 एच)      | 16 मार्च 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | बलवीर सिंह ढिंढवाल | सं. 3189531 एफ अब जेसी-491686 एल)        | 06 फरवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | अमरपाल सिंह        | सं. 3189206 एफ अब जेसी-491687 एन)        | 18 मार्च 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 फरवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | प्रेम सिंह         | सं. 2600109 के अब जेसी-491688 डब्ल्यू)   | 06 अप्रैल 2017*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | ओमबीर सिंह         | सं. 3187677 डब्ल्यू अब जेसी-491689 वाई)  | 01 मार्च 2017    |
| हवलदार                                                                                                | रणधीर सिंह         | सं. 3187711 एल अब जेसी-491690 एन)        | 15 मार्च 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | माया राम           | सं. 3187865 एक्स अब जेसी-491691 डब्ल्यू) | 01 मार्च 2017    |
| हवलदार                                                                                                | कुल दीप            | सं. 3188512 के अब जेसी-491692 वाई)       | 01 मार्च 2017    |
| हवलदार                                                                                                | भवानी सिंह         | सं. 3188337 ए अब जेसी-491693 एफ)         | 01 मार्च 2017    |
| हवलदार                                                                                                | वेदवीर सिंह        | सं. 3190038 ए अब जेसी-491694 के)         | 04 मार्च 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | भँवर लाल           | सं. 3190495 एन अब जेसी-491695 एम)        | 16 मार्च 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | हरेन्द्र सिंह      | सं. 3188182 डब्ल्यू अब जेसी-491696 पी)   | 19 अप्रैल 2017*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मार्च 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | राज पाल            | सं. 3189578 एम अब जेसी-491697 एक्स)      | 26 अप्रैल 2017*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जायेगी)  |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | सुभाष              | सं. 3190541 एक्स अब जेसी-491698 ए)       | 01 अप्रैल 2017   |
| हवलदार                                                                                                | बिहारी लाल         | सं. 3191630 एच अब जेसी-491596 के)        | 11 नवम्बर 2016*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जायेगी) |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | रामअवतार           | सं. 3187551 डब्ल्यू अब जेसी-491597 एम)   | 12 अक्टूबर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | शिशुपाल सिंह       | सं. 3189883 वाई अब जेसी-491598 पी)       | 18 अक्टूबर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | भगवन्ता राम        | सं. 3188790 एक्स अब जेसी-491599 एक्स)    | 10 नवम्बर 2016*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 जुलाई 2016 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | राज पाल            | सं. 3189895 एन अब जेसी-491600 एफ)        | 11 नवम्बर 2016*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अगस्त 2016 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | इन्द्रजीत सिंह     | सं. 4077465 वाई अब जेसी-491601 के)       | 17 नवम्बर 2016*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 सितम्बर 2016 से दी जायेगी) |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | हरफूल सिंह         | सं. 3189210 के अब जेसी-491602 एम)        | 10 नवम्बर 2016*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2016 से दी जायेगी) |                    |                                          |                  |

|                                                                                                       |                       |                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------|
| हवलदार                                                                                                | प्रेम चन्द            | सं. 3189248 एन अब जेसी-491603 पी)        | 10 नवम्बर 2016*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 सितम्बर 2016 से दी जायेगी) |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | गिरधारी लाल जाट       | सं. 3186075 डब्ल्यू अब जेसी-491604 एक्स) | 01 नवम्बर 2016   |
| हवलदार                                                                                                | दिलबाग सिंह           | सं. 3188130 ए अब जेसी-491605 ए)          | 01 नवम्बर 2016   |
| हवलदार                                                                                                | महेन्द्र कुमार गढवाल  | सं. 3188335 पी अब जेसी-491606 एच)        | 01 नवम्बर 2016   |
| हवलदार लिपिक                                                                                          | मनोज कुमार मिश्रा     | सं. 3190409 एक्स अब जेसी-491607 एल)      | 29 अक्टूबर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी) |                       |                                          |                  |
| हवलदार लिपिक                                                                                          | श्री कुमार एस         | सं. 3191304 ए अब जेसी-491608 एन)         | 01 नवम्बर 2016   |
| हवलदार                                                                                                | सुरेन्द्र सिंह        | सं. 3188592 एम अब जेसी-491642 एन)        | 10 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 से दी जायेगी)   |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | योगेश सिंह            | सं. 3187699 पी अब जेसी-491643 डब्ल्यू)   | 06 जनवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)  |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | सुरेश कुमार           | सं. 3188913 वाई अब जेसी-491644 वाई)      | 21 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवंबर 2016 से दी जायेगी)   |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | शिव पाल सिंह          | सं. 3187937 डब्ल्यू अब जेसी-491645 एफ)   | 03 नवम्बर 2016*  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)  |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | भोमा राम चौधरी        | सं. 3189911 ए अब जेसी-491646 के)         | 21 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)  |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | विवेन्द्र सिंह        | सं. 4077990 पी अब जेसी-491647 एम)        | 01 जनवरी 2017    |
| हवलदार                                                                                                | जितेन्द्र कुमार दुहून | सं. 3186890 के अब जेसी-491648 पी)        | 02 जनवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | नरेन्द्र कुमार        | सं. 3187056 एक्स अब जेसी-491649 एक्स)    | 02 जनवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | राजेन्द्र सिंह वर्मा  | सं. 3188627 एक्स अब जेसी-491650 एम)      | 01 जनवरी 2017    |
| हवलदार                                                                                                | राजवीर सिंह           | सं. 3188798 के अब जेसी-491651 पी)        | 11 जनवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | राकेश कुमार           | सं. 3193924 पी अब जेसी-491652 एक्स)      | 13 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जायेगी)      |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | राजेन्द्र सिंह        | सं. 3187525 पी अब जेसी-491653 ए)         | 01 फरवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अगस्त 2015 से दी जायेगी)   |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | राम निवास             | सं. 3196148 एल अब जेसी-491654 एच)        | 31 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जुलाई 2016 से दी जायेगी)   |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | अशोक कुमार            | सं. 3187984 एन अब जेसी-491655 एल)        | 31 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी)   |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | राम रतन               | सं. 3188195 एन अब जेसी-491656 एन)        | 06 फरवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जायेगी)   |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | सुरेश चन्द            | सं. 3188403 एक्स अब जेसी-491657 डब्ल्यू) | 31 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जायेगी) |                       |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | विनोद कुमार           | सं. 2792269 डब्ल्यू अब जेसी-491658 वाई)  | 31 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जायेगी) |                       |                                          |                  |

|                                                                                                       |                    |                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|
| हवलदार                                                                                                | शीश पाल सिंह       | सं. 3189346 एन अब जेसी-491659 एफ)        | 31 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 सितम्बर 2016 से दी जायेगी) |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | बल राज             | सं. 3187311 वाई अब जेसी-491660 डब्ल्यू)  | 04 जनवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जायेगी)  |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | सुगना राम          | सं. 2600439 एच अब जेसी-491661 वाई)       | 26 जनवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी) |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | सोहन सिंह          | सं. 3187334 ए अब जेसी-491662 एफ)         | 22 दिसम्बर 2016* |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 से दी जायेगी) |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | निरापति सिंह       | सं. 3187427 पी अब जेसी-491663 के)        | 25 जनवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | सुखबीर             | सं. 3187430 पी अब जेसी-491664 एम)        | 25 जनवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | योगेन्द्र सिंह     | सं. 3188063 ए अब जेसी-491665 पी)         | 07 फरवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | योग वीर सिंह       | सं. 3195164 डब्ल्यू अब जेसी-491666 एक्स) | 04 फरवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | ओम प्रकाश          | सं. 3190059 डब्ल्यू अब जेसी-491667 ए)    | 11 फरवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | देवेन्द्र सिंह     | सं. 4078001 एन अब जेसी-491668 एच)        | 02 फरवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | डम्बर सिंह         | सं. 2600891 एक्स अब जेसी-491669 एल)      | 02 फरवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | पूनमा राम          | सं. 3187138 ए अब जेसी-491670 ए)          | 13 फरवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | धर्म वीर सिंह      | सं. 3188891 एल अब जेसी-491671 एच)        | 27 फरवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | सुदेश कुमार        | सं. 3190070 पी अब जेसी-491672 एल)        | 06 फरवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | चूना राम           | सं. 3189749 एन अब जेसी-491673 एन)        | 25 जनवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जनवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | प्रदीप कुमार       | सं. 3189954 पी अब जेसी-491674 डब्ल्यू)   | 02 फरवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | राजबीर सिंह गढ़वाल | सं. 3189785 वाई अब जेसी-491675 वाई)      | 06 फरवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | सुरेश कुमार गुर्जर | सं. 3189801 एल अब जेसी-491676 एफ)        | 09 फरवरी 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | दलबीर सिंह         | सं. 3187391 एफ अब जेसी-491677 के)        | 03 मार्च 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |
| हवलदार                                                                                                | देश राज            | सं. 3187463 ए अब जेसी-491678 एम)         | 01 मार्च 2017    |
| हवलदार                                                                                                | रमेश कुमार         | सं. 3188718 एफ अब जेसी-491679 पी)        | 08 मार्च 2017*   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2017 से दी जायेगी)   |                    |                                          |                  |

|              |                    |                                     |               |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| हवलदार       | विपिन कुमार        | सं. 3190216 एक्स अब जेसी-491680 के) | 01 मार्च 2017 |
| हवलदार लिपिक | वीरेन्द्र भारद्वाज | सं. 3191369 एन अब जेसी-491681 एम)   | 01 फरवरी 2017 |

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

|                                                                                                    |                                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| नायब सूबेदार रुपेन्द्र सिंह                                                                        | (16022678डब्ल्यू अब जेसी-471867पी)  | 03 दिसम्बर 2016/*28 सितम्बर 2015 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2016 दी जायेगी) |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार इन्द्रजीत सिंह                                                                        | (2891026एन अब जेसी-471868एक्स)      | 02 नवम्बर 2016/*01 जुलाई 2016    |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 दी जायेगी)   |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा                                                                           | (471869ए अब जेसी-471869ए)           | 31 दिसम्बर 2016/*26 अगस्त 2016   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अगस्त 2016 दी जायेगी)   |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार गुलजारी लाल लमोरिया                                                                   | (2890607वाई अब जेसी-471870पी)       | 27 अक्टूबर 2016/*01 सितम्बर 2016 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 दी जायेगी) |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र                                                                          | (2889865एम अब जेसी-471871एक्स)      | 05 दिसम्बर 2016/*26 सितम्बर 2016 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 सितम्बर 2016 दी जायेगी) |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार काली राम                                                                              | (2890758एक्स जेसी-471872ए)          | 31 दिसम्बर 2016/*28 सितम्बर 2016 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2016 दी जायेगी) |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार म्यूजिशियन राजेन्द्र                                                                  | (2890429एफ जेसी-471873एच)           | 15 मार्च 2017/*01 अक्टूबर 2016   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 दी जायेगी) |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार सचिन्द्र कटारे                                                                        | (471874एल अब जेसी-471874एल)         | 07 अक्टूबर 2016                  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अक्टूबर 2016 दी जायेगी) |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार विकास कुमार                                                                           | (2889709एच अब जेसी-471875एन)        | 16 नवम्बर 2016/*12 अक्टूबर 2016  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अक्टूबर 2016 दी जायेगी) |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार नरेश सिंह, सेना मेडल                                                                  | (2890033एक्स अब जेसी-471876डब्ल्यू) | 19 नवम्बर 2016/*01 नवम्बर 2016   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 दी जायेगी)  |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार संत कुमार                                                                             | (3994559एम अब जेसी-471877वाई)       | 10 नवम्बर 2016/*01 नवम्बर 2016   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 दी जायेगी)  |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार अजीत सिंह                                                                             | (2893779वाई अब जेसी-471878 एफ)      | 17 दिसम्बर 2016/*01 नवम्बर 2016  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 दी जायेगी)  |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार विजय सिंह                                                                             | (2890950एफ अब जेसी-471879के)        | 28 दिसम्बर 2016/*01 नवम्बर 2016  |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 दी जायेगी)  |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार रण सिंह                                                                               | (2889546ए अब जेसी-471880वाई)        | 04 नवम्बर 2016/*01 नवम्बर 2016   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 दी जायेगी)  |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार शम्भु सिंह, सेना मेडल                                                                 | (2891149ए अब जेसी-471881एफ)         | 01 नवम्बर 2016                   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 दी जायेगी)  |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार दिगम्बर सिंह                                                                          | (2890567एच अब जेसी-471882के)        | 03 नवम्बर 2016/*01 नवम्बर 2016   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 दी जायेगी)  |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार ओमवीर सिंह                                                                            | (2890569एन अब जेसी-471883एम)        | 03 नवम्बर 2016/*01 नवम्बर 2016   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 दी जायेगी)  |                                     |                                  |
| नायब सूबेदार धर्म सिंह                                                                             | (2891351एन जेसी-471884पी))          | 10 नवम्बर 2016/*01 नवम्बर 2016   |

|                                                                                                    |                                   |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 दी जायेगी)  |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार जब्बर मल जाट                                                                          | (2892150एफ अब जेसी-471885एक्स)    | 21 नवम्बर 2016/*01 नवम्बर 2016   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 दी जायेगी)  |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार अनिल कुमार                                                                            | (16016310एक्स अब जेसी-471886ए)    | 04 जनवरी 2017/*05 नवम्बर 2016    |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 नवम्बर 2016 दी जायेगी)  |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार दम्बर सिंह                                                                            | (2889876वाई अब जेसी-471887एच)     | 03 जनवरी 2016/*29 नवम्बर 2016    |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 नवम्बर 2016 दी जायेगी)  |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार लिपिक छत्रपाल सिंह                                                                    | (2891121ए अब जेसी-471888एल)       | 01 दिसम्बर 2016                  |
| नायब सूबेदार जितेन्द्र सिंह                                                                        | (2889487वाई अब जेसी-471889एन)     | 05 दिसम्बर 2016/*01 दिसम्बर 2016 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार सुबे सिंह                                                                             | (2889548एल अब जेसी-471890एच)      | 05 दिसम्बर 2016/*01 दिसम्बर 2016 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार राघवेन्द्र सिंह भदौरिया                                                               | (2890348एफ अब जेसी-471891एल)      | 04 जनवरी 2017/*01 दिसम्बर 2016   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार देवी सिंह शेखावत                                                                      | (2889229वाई अब जेसी-471892एन)     | 05 दिसम्बर 2016/*01 दिसम्बर 2016 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार जयवीर सिंह                                                                            | (16017474ए अब जेसी-471893डब्ल्यू) | 28 दिसम्बर 2016/*01 दिसम्बर 2016 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह                                                                        | (2890052एच अब जेसी-471894वाई)     | 04 जनवरी 2017/*01 दिसम्बर 2016   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार रमेश कुमार सिंह                                                                       | (2890808एक्स अब जेसी-471895एफ)    | 30 दिसम्बर 2016/*01 दिसम्बर 2016 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार जाले सिंह                                                                             | (2891353वाई अब जेसी-471896के)     | 28 दिसम्बर 2016/*01 दिसम्बर 2016 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार दलीप सिंह                                                                             | (2890681ए अब जेसी-471897एम)       | 01 दिसम्बर 2016                  |
| नायब सूबेदार घमण्डा राम गोरसिया                                                                    | (2892336एल अब जेसी-471898पी)      | 01 दिसम्बर 2016                  |
| नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार                                                                       | (2892174एल अब जेसी-471899एक्स)    | 28 दिसम्बर 2016/*01 दिसम्बर 2016 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार प्रमोद सिंह                                                                           | (2891789के अब जेसी-471900एफ)      | 04 जनवरी 2017/*01 दिसम्बर 2016   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार सवाई सिंह                                                                             | (2891816एच अब जेसी-471901के)      | 04 जनवरी 2017/*01 दिसम्बर 2016   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार ओम प्रकाश                                                                             | (2891233ए अब जेसी-471902एम)       | 01 दिसम्बर 2016                  |
| नायब सूबेदार सुमेर सिंह राठौर                                                                      | (2893117डब्ल्यू अब जेसी-471903पी) | 01 दिसम्बर 2016                  |
| नायब सूबेदार राजीव कुमार                                                                           | (2890770वाई अब जेसी-471904एक्स)   | 05 दिसम्बर 2016/*01 दिसम्बर 2016 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार राजेश सिंह                                                                            | (2890933एफ अब जेसी-471905ए)       | 28 दिसम्बर 2016/*01 दिसम्बर 2016 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार अजय कुमार सिंह                                                                        | (2891375एक्स अब जेसी-471906एच)    | 02 जनवरी 2017/*01 दिसम्बर 2016   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                   |                                  |
| नायब सूबेदार महावीर सिंह                                                                           | (2892273एन अब जेसी-471907एल)      | 11 दिसम्बर 2016/*01 दिसम्बर 2016 |

|                                                                                                    |                                    |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार हुकम सिंह                                                                             | (2891786डब्ल्यू अब जेसी-471908एन)  | 05 दिसम्बर 2016/*01 दिसम्बर 2016 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार मलखान सिंह                                                                            | (3995027वाई अब जेसी-471909डब्ल्यू) | 03 जनवरी 2017/*08 दिसम्बर 2016   |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2016 दी जायेगी) |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार (आर टी) संदीप कुमार                                                                   | (471910एल अब जेसी-471910एल)        | 24 दिसम्बर 2016                  |
| नायब सूबेदार लिपिक राम स्वरूप                                                                      | (2891127एफ अब जेसी-471911एन)       | 02 जनवरी 2017/*01 जनवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार लिपिक दिनेश कुमार                                                                     | (2891128के अब जेसी-471912डब्ल्यू)  | 01 जनवरी 2017                    |
| नायब सूबेदार लिपिक अरविन्द कुमार                                                                   | (2891134एक्स अब जेसी-471913वाई)    | 28 जनवरी 2017/*01 जनवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार लिपिक राम इकबाल सिंह                                                                  | (2891163एम अब जेसी-471914एफ)       | 02 जनवरी 2017/*01 जनवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार चन्द्र बोस                                                                            | (2889976के अब जेसी-471915के)       | 28 जनवरी 2017/*01 जनवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार कृष्ण कुमार                                                                           | (3995547के अब जेसी-471916एम)       | 04 फरवरी 2017/*01 जनवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार भूप सिंह                                                                              | (2889529ए अब जेसी-471917पी)        | 20 जनवरी 2017/*01 जनवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार गुरनैल सिंह                                                                           | (3996310वाई अब जेसी-471918एक्स)    | 04 फरवरी 2017/*01 जनवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार दिनेश कुमार                                                                           | (8034696ए अब जेसी-471919ए)         | 02 जनवरी 2017/*01 जनवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार श्री राम महारिया                                                                      | (2892470डब्ल्यू अब जेसी-471920पी)  | 28 जनवरी 2017/*01 जनवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार                                                                        | (2891424पी अब जेसी-471921एक्स)     | 31 जनवरी 2017/*01 जनवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार कुलदीप सिंह                                                                           | (2891903एच अब जेसी-471922ए)        | 28 जनवरी 2017/*01 जनवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार रामवीर सिंह                                                                           | (2890040एन अब जेसी-471923एच)       | 15 फरवरी 2017/*01 जनवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार हेम राज                                                                               | (2889576एक्स अब जेसी-471924एल)     | 01 मार्च 2017/*09 जनवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जनवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार मदन सिंह                                                                              | (2888685एक्स अब जेसी-471925एन)     | 02 फरवरी 2017/*01 फरवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार जगवीर सिंह                                                                            | (2889510एफ अब जेसी-471926डब्ल्यू)  | 10 फरवरी 2017/*01 फरवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार भेंवर सिंह                                                                            | (2889758एल अब जेसी-471927वाई)      | 02 फरवरी 2017/*01 फरवरी 2017     |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी)   |                                    |                                  |
| नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह                                                                         | (2889821पी अब जेसी-471928एफ)       | 02 फरवरी 2017/*01 फरवरी 2017     |

|                                                                                                  |                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी) |                                   |                               |
| नायब सूबेदार कृष्ण कुमार                                                                         | (2890301डब्ल्यू अब जेसी-471929के) | 11 फरवरी 2017 /*01 फरवरी 2017 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी) |                                   |                               |
| नायब सूबेदार ओम प्रकाश                                                                           | (2890060एफ अब जेसी-471930वाई)     | 07 फरवरी 2017 /*01 फरवरी 2017 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी) |                                   |                               |
| नायब सूबेदार जुगेन्द्र सिंह                                                                      | (2889131एल अब जेसी-471931एफ)      | 16 फरवरी 2017 /*01 फरवरी 2017 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी) |                                   |                               |
| नायब सूबेदार मन्दरूप                                                                             | (2889983ए अब जेसी-471932के)       | 06 फरवरी 2017 /*01 फरवरी 2017 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी) |                                   |                               |
| नायब सूबेदार बंश राज सिंह                                                                        | (2889835पी अब जेसी-471933एम)      | 06 फरवरी 2017 /*01 फरवरी 2017 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी) |                                   |                               |
| नायब सूबेदार अमर राम                                                                             | (2890091एफ अब जेसी-471934पी)      | 07 फरवरी 2017 /*01 फरवरी 2017 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी) |                                   |                               |
| नायब सूबेदार दलीप सिंह                                                                           | (2889034एन अब जेसी-471935एक्स)    | 01 फरवरी 2017                 |
| नायब सूबेदार अश्वने कुमार सिंह                                                                   | (3996018के अब जेसी-471936ए)       | 04 फरवरी 2017 /*01 फरवरी 2017 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी) |                                   |                               |
| नायब सूबेदार हरदीप कुमार                                                                         | (2889910एन अब जेसी-471937एच)      | 01 मार्च 2017 /*01 फरवरी 2017 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी) |                                   |                               |
| नायब सूबेदार मोहम्मद समशेर                                                                       | (2889879एम अब जेसी-471938एल)      | 03 मार्च 2017 /*01 फरवरी 2017 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी) |                                   |                               |
| नायब सूबेदार फिरोज अहमद खान                                                                      | (2890100एक्स अब जेसी-471939एन)    | 03 मार्च 2017 /*01 फरवरी 2017 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी) |                                   |                               |
| नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह                                                                       | (3996065एफ अब जेसी-471940एच)      | 04 फरवरी 2017 /*01 फरवरी 2017 |
| *(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 दी जायेगी) |                                   |                               |
| नायब सूबेदार जय भगवान                                                                            | (2889419एल अब जेसी-471941एल)      | 01 फरवरी 2017                 |

प्रशान्त राव टी डी  
अवर सचिव

सं. 278, दिनांक 28 नवम्बर 2017—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

सेना आयुद्ध

नायब सूबेदार के रैंक में

|                                                                                                   |                          |           |                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| हवलदार एटी                                                                                        | धर्मेन्द्र सिंह          | 6939173पी | अब जेसी 732465ए       | 12 मई 2016    |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2016 से दी जायेगी |                          |           |                       |               |
| हवलदार एटी                                                                                        | संजय ठाकुर               | 6939083एन | अब जेसी 732466एच)     | 18 जुलाई 2016 |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी   |                          |           |                       |               |
| हवलदार एटी                                                                                        | तमल दास                  | 6938818ए  | अब जेसी 732467एल      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एटी                                                                                        | त्रिलोक चंद श्री राम चंद | 6940014के | अब जेसी 732468एन      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एटी                                                                                        | अशोक कुमार               | 6938830एफ | अब जेसी 732469डब्ल्यू | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एटी                                                                                        | नरेश कुमार               | 6938833पी | अब जेसी 732470एल      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एटी                                                                                        | लक्ष्मण                  | 6938846एम | अब जेसी 732471एन      | 01 जुलाई 2016 |

|                     |                        |                |                       |               |
|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| हवलदार एटी          | जवाहर लाल राम          | 6939231एन      | अब जेसी 732472डब्ल्यू | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एटी          | गुरविंदर सिंह          | 6939299पी      | अब जेसी 732473वाई     | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एटी          | विदया नंदन प्रसाद      | 6940117एच)     | अब जेसी 732474एफ      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एटी          | प्रमोद कुमार मिश्रा    | 6940206एफ      | अब जेसी 732475के      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एटी          | सुधीर कुमार            | 6940207के      | अब जेसी 732476एम      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एटी          | राकेश कुमार शर्मा      | 6940253वाई     | अब जेसी 732477पी      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एटी          | अमरनाथ शर्मा           | 6940560पी      | अब जेसी 732478एक्स)   | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी | असीस बेरा              | 6938259एफ      | अब जेसी 732479ए       | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी | एस वी श्रीनाथन         | 6938278एम      | अब जेसी 732480पी      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी | राकेश कुमार            | 69440263एच     | अब जेसी 732481एक्स    | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी | कण्णा प्रताप सिंह      | 6938184एच      | अब जेसी 732482ए       | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी | रमेश कुमार गड्डेला     | 6938204एक्स    | अब जेसी 732483एच      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी | विजय प्रकाश            | 6938293एफ      | अब जेसी 732484एल      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी | ओम प्रकाश              | 6938298ए       | अब जेसी 732485एन      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी | नलराज सिंह             | 6938314एम      | अब जेसी 732486डब्ल्यू | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी | रबिंद्रा कुमार प्रहराज | 6938248पी      | अब जेसी 732487वाई     | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी | संजय विश्वास           | 6938257डब्ल्यू | अब जेसी 732488एफ      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | बुल्लु सेठी            | 6936485ए       | अब जेसी 732489के      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | पुष्पेंद्र सिंह        | 6936487एल      | अब जेसी 732490वाई     | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | हर्षपति डोबरियाल       | 6936494एफ      | अब जेसी 732491एफ      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | पुष्पेंद्र सिंह        | 6936495के      | अब जेसी 732492के      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | भुपेंद्र सिंह राना     | 6936496एम      | अब जेसी 732493एम      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | सुरेश कुमार शर्मा      | 6936498एक्स    | अब जेसी 732494पी      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | सुरजीत सिंह            | 6936509वाई     | अब जेसी 732495एक्स    | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | अजय कुमार सिंह         | 6936513एफ      | अब जेसी 732496ए       | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | नरेश यादव              | 6936521ए       | अब जेसी 732497एच      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | लोकेश ठाकुर            | 6936524एन      | अब जेसी 732498एल      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | मुकेश कुमार            | 6936510एन      | अब जेसी 732499एन      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | जॉन केनेडी             | 6936515एम      | अब जेसी 732500एक्स    | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | जितेंद्र कुमार         | 6936525डब्ल्यू | अब जेसी 732501ए       | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | सत्य देव               | 6936531के      | अब जेसी 732502एच      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | जितेंद्रा कुमार सिंह   | 6936532एम      | अब जेसी 732503एल      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | शीष राम                | 6936534एक्स    | अब जेसी 732504एन      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | प्रदीप सी के           | 6936538एन      | अब जेसी 732505डब्ल्यू | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | दीपक जी                | 6936541एन      | अब जेसी 732506वाई     | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | पुष्कर सिंह            | 6936545के      | अब जेसी 732507एफ      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | मिथलेश कुमार चोधरी     | 6934737एच      | अब जेसी 732508के      | 01 जुलाई 2016 |

|                                                                                                   |                                  |                |                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| हवलदार कर्लक आई एम                                                                                | राम लाल                          | 6936633ए       | अब जेसी 732509एम      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार कर्लक आई एम                                                                                | लखन लाल                          | 6936645पी      | अब जेसी 732510एफ      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार कर्लक आई एम                                                                                | सुमेर सिंह                       | 6936655वाई     | अब जेसी 732511के      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार कर्लक आई एम                                                                                | लक्ष्मण चंद्र सरकार              | 6936657के      | अब जेसी 732512एम      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार कर्लक आई एम                                                                                | जगपाल सिंह                       | 6936689एम      | अब जेसी 732513पी      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार कर्लक आई एम                                                                                | बाल चंद                          | 6936690एफ      | अब जेसी 732514एक्स    | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार कर्लक आई एम                                                                                | दीपक दुबे                        | 6936696एच      | अब जेसी 732515ए       | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार कर्लक आई एम                                                                                | यादव विमल प्रकाश नकछेड           | 6934444एक्स    | अब जेसी 732516एच      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार कर्लक आई एम                                                                                | सुरेश कुमार                      | 6934569पी      | अब जेसी 732517एल      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार कर्लक आई एम                                                                                | किरन किशोर सिंह                  | 6935524एफ      | अब जेसी 732518एन      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार कर्लक आई एम                                                                                | राम कुमार सिंह                   | 6935814वाई     | अब जेसी 732519डब्ल्यू | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार कर्लक आई एम                                                                                | कुलदीप चंद्र                     | 6935949ए       | अब जेसी 732520एल      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार कर्लक आई एम                                                                                | लीलाधर जोशी                      | 6935960वाई     | अब जेसी 732521एन      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी एम टी                                                                             | राम केवल                         | 6936477एफ      | अब जेसी 732522डब्ल्यू | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी एम टी                                                                             | योगंदर कुमार                     | 6936938ए       | अब जेसी 732523वाई     | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी एम टी                                                                             | लोकेश कुमार                      | 6936943एल      | अब जेसी 732524एफ      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी एम टी                                                                             | अमृत लाल                         | 6936944एन      | अब जेसी 732525के      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी आम्बुनेशन                                                                         | शिव शंकर सिंह                    | 6939501एक्स    | अब जेसी 732526एम      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी आम्बुनेशन                                                                         | बलबीर शर्मा                      | 6940022एच      | अब जेसी 732527पी      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी आम्बुनेशन                                                                         | जमन सिंह                         | 6940035ए       | अब जेसी 732528एक्स    | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी आम्बुनेशन                                                                         | प्रदीप कुमार                     | 6940057वाई     | अब जेसी 732529ए       | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी आम्बुनेशन                                                                         | पंडित हरे राम<br>श्री सती नारायण | 6938811डब्ल्यू | अब जेसी 732530पी      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी जी एस एंड सीके एस फरुक                                                            |                                  | 6933719एन      | अब जेसी 732531एक्स    | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी जी एस एंड सी देवाशिश मंडल                                                         |                                  | 6932885पी      | अब जेसी 732532ए       | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी सिगनलरबदा रघुनाथ                                                                  |                                  | 6934014एन      | अब जेसी 732533एच      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी वैपन                                                                              | नरेंद्र सिंह ठाकुर               | 6934075एल      | अब जेसी 732534एल      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी वैपन                                                                              | देस राज                          | 6934078वाई     | अब जेसी 732535एन      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी इंजीनीयर                                                                          | बलवंत सिंह                       | 6934518एफ      | अब जेसी 732536डब्ल्यू | 18 जुलाई 2016 |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 से दी जायेगी |                                  |                |                       |               |
| हवलदार एस के टी एवीऐशनसचिन कुमार                                                                  |                                  | 6942636के      | अब जेसी 732537वाई     | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस एच टी                                                                                   | वी बी कुलाई स्वामी               | 6932013एम      | अब जेसी 732538एफ      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस एच टी                                                                                   | विवेकानंद                        | 6932265वाई     | अब जेसी 732539के      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार ड्राईवर एम टी                                                                              | राम कुमार सिंह                   | 6934425एम      | अब जेसी 732540वाई     | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार ड्राईवर स्पेशल                                                                             | वैहीकल राकेश कुमार               | 6934426पी      | अब जेसी 732541एफ      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस एच जी डी                                                                                | सुर्य बहादुर थापा                | 6934845एम      | अब जेसी 732542के      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस एच जी डी                                                                                | प्रमोद सिंह                      | 6934848ए       | अब जेसी 732543एम      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस एच जी डी                                                                                | सुशील कुमार अरोडा                | 6934849एच      | अब जेसी 732544पी      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस एच जी डी                                                                                | केलाश नाथ एन                     | 6934850एक्स    | अब जेसी 732545एक्स    | 01 जुलाई 2016 |

|                     |                  |            |                  |               |
|---------------------|------------------|------------|------------------|---------------|
| हवलदार एस एच जी डी  | दिलीप कुमार      | 6934851ए   | अब जेसी 732546ए  | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस एच जी डी  | जी रामाचंद्रन    | 6934857एफ  | अब जेसी 732547एच | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस एच जी डी  | सी कुमार         | 6934858के  | अब जेसी 732548एल | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | अवधेश सिंह राठौर | 6936266वाई | अब जेसी 732549एन | 20 जुलाई 2016 |

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी

|                                               |                        |                |                       |               |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| हवलदार क्लर्क एस डी                           | कर्ण सिंह              | 6937960एक्स    | अब जेसी 732550एच      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार एस के टी एम्युनेशन देवेंद्र कुमार सिंह |                        | 6939947एम      | अब जेसी 732551एल      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार एस के टी जी एस एंड सी हरी ओम सिंह      |                        | 6933672एन      | अब जेसी 732552एन      | 01 जुलाई 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी                           | सुखपाल नागर            | 6938699पी      | अब जेसी 732553डब्ल्यू | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी                           | भोयर योगेश वामन राव    | 6938703एम      | अब जेसी 732554वाई     | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी                           | चरनजीत सिंह            | 6938729एफ      | अब जेसी 732555एफ      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी                           | शिवाले सुनील लक्ष्मण   | 6938732एफ      | अब जेसी 732556के      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी                           | पवार रमाकांत परितवीराज | 6938742एल      | अब जेसी 732557एम      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी                           | पवार संतोश हरी भाउ     | 6938696एफ      | अब जेसी 732558पी      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी                           | मनोज कुमार पांडे       | 6938751एम      | अब जेसी 732559एक्स    | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                           | देबेंद्र कुमार लेंका   | 6936004एच      | अब जेसी 732560एम      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                           | इंद्र देव यादव         | 6936227ए       | अब जेसी 732561पी      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                           | राम अवतार दिवाकर       | 6936319एम      | अब जेसी 732562एक्स    | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                           | जमिल हुसैन             | 6936346डब्ल्यू | अब जेसी 732563ए       | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                           | बाबु लाल यादव          | 6936536एच      | अब जेसी 732564एच      | 13 अगस्त 2016 |

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जायेगी

|                     |                        |                |                       |               |
|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| हवलदार क्लर्क आई एम | मंगल सिंह              | 6936693पी      | अब जेसी 732565एल      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | परमार पी) के आत्माराम  | 6936766डब्ल्यू | अब जेसी 732566एन      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | प्रदुमन प्रसाद         | 6936802डब्ल्यू | अब जेसी 732567डब्ल्यू | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | विष्णु कुमार           | 6936803वाई     | अब जेसी 732568वाई     | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | सुभाषिष घोष            | 6936816डब्ल्यू | अब जेसी 732569एफ      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | साजु सी सी             | 6936820वाई     | अब जेसी 732570डब्ल्यू | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | प्रफुल्ला कुमार बिसवाल | 6936825एक्स    | अब जेसी 732571वाई     | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | दीपक कुमार मंडल        | 6936839एक्स    | अब जेसी 732572एफ      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | सुनील चौधरी            | 6936840एम      | अब जेसी 732573के      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | अभ्य कुमार तांती       | 6936852एफ      | अब जेसी 732574एम      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | स्वपन दत्ता            | 6936887एक्स    | अब जेसी 732575पी      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | मनोज कुमार सिंह        | 6936921एम      | अब जेसी 732576एक्स    | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | यश पाल सिंह            | 6935696डब्ल्यू | अब जेसी 732577ए       | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | नारायण कुमार शुक्ला    | 6935947पी      | अब जेसी 732578एच      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | योगेश कुमार            | 6935950पी      | अब जेसी 732579एल      | 01 अगस्त 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम | विनोद कुमार            | 6936527एफ      | अब जेसी 732580ए       | 01 अगस्त 2016 |

|                                                  |                |                       |                |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| हवलदार एस के टी एम टी कश्यप कुमार                | 6936958एन      | अब जेसी 732581एच      | 01 अगस्त 2016  |
| हवलदार एस के टी एम युनेशन मसके योगेश देवराव      | 6939354ए       | अब जेसी 732582एल      | 01 अगस्त 2016  |
| हवलदार एस के टी जी एस एंड सी भाब नाथ झा          | 6933599ए       | अब जेसी 732583एन      | 01 अगस्त 2016  |
| हवलदार एस के टी सिग्नल आर के सरवना कुमार         | 6933105एल      | अब जेसी 732584डब्ल्यू | 01 अगस्त 2016  |
| हवलदार एस के टी वेपन दयाशंकर यादव                | 6934084एम      | अब जेसी 732585वाई     | 01 अगस्त 2016  |
| हवलदार ए टी रणधीर कुमार                          | 6940264एल      | अब जेसी 732586एफ      | 01 अगस्त 2016  |
| हवलदार क्लर्क आई एम प्रबल प्रताप सिंह            | 6936320एफ      | अब जेसी 732587के      | 01 अगस्त 2016  |
| हवलदार क्लर्क आई एम उमेद कुमार डंका              | 6936699डब्ल्यू | अब जेसी 732588एम      | 01 अगस्त 2016  |
| हवलदार ए टी मोहम्मद जमशेद अली एस के              | 6940533एम      | अब जेसी 732589पी      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी अरविंद कुमार सिंह            | 6938755एच      | अब जेसी 732590के      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी तिवारी प्रेम सागर            | 6938760एन      | अब जेसी 732591एम      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी अशोक कुमार सिंह              | 6938773एल      | अब जेसी 732592पी      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी प्रभाकर द्विवेदी             | 6938781के      | अब जेसी 732593एक्स    | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी मनफूल सिंह                   | 6938792डब्ल्यू | अब जेसी 732594ए       | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम कमल थापा                     | 6936947एफ      | अब जेसी 732595एच      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम राजेंद्र कुमार               | 6936948के      | अब जेसी 732596एल      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम इरफान अहमद                   | 6936954एक्स    | अब जेसी 732597एन      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम भुपेंद्र सिंह राठौर          | 6936977वाई     | अब जेसी 732598डब्ल्यू | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम बीर सिंह यादव                | 6936979के      | अब जेसी 732599वाई     | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम गुर्जर दयानंद मुकून्द        | 6936980वाई     | अब जेसी 732600एच      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम पाटिल राजेश कुमार मुर्लीधर   | 6936762ए       | अब जेसी 732601एल      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम माने संतोष कुमार भगवान       | 6936765एन      | अब जेसी 732602एन      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम देवानंद शुक्ला               | 6936851वाई     | अब जेसी 732603डब्ल्यू | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम तिलक धारी सिंह               | 6936949एम      | अब जेसी 732604वाई     | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम गुंजल चंदु हरी भाउ           | 6936987एच      | अब जेसी 732605एफ      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम दिलीप कुमार सिंह             | 6936999एक्स    | अब जेसी 732606के      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम शीश राम                      | 6937003एम      | अब जेसी 732607एम      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम फगारे सुरेश तुकाराम          | 6937010एच      | अब जेसी 732608पी      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार एस के टी सिग्नल राजेंद्र सिंह             | 6933935एफ      | अब जेसी 732609एक्स    | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार एस के टी सिग्नल चंद्र पाल सिंह            | 6933938पी      | अब जेसी 732610एम      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार एस के टी जी अजय कुमार तिवारी एस एंड सी    | 6933688वाई     | अब जेसी 732611पी      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार एस के टी एम टी भोपेंद्र सिंह सिरौही       | 6936961एन      | अब जेसी 732612एक्स    | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार एस के टी एम्युनेशन संजय कुमार             | 6939423एल      | अब जेसी 732613ए       | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार एस के टी एम्युनेशन राजेश कुमार श्रीवास्तव | 6938943के      | अब जेसी 732614एच      | 01 सितंबर 2016 |
| हवलदार ड्राईवर एम टी पासंग शेरपा                 | 6934452डब्ल्यू | अब जेसी 732615एल      | 01 सितंबर 2016 |

|                                                                                                     |                           |                |                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| हवलदार ड्राईवर एम टी                                                                                | हिरदेश कुमारलक            | 6934456एम      | अब जेसी 732616एन      | 01 सितंबर 2016  |
| हवलदार एस एच जी डी                                                                                  | राम लाल                   | 6934866एच      | अब जेसी 732617डब्ल्यू | 01 सितंबर 2016  |
| हवलदार एस एच टी                                                                                     | मुकेश कुमार यादव          | 6932277एन      | अब जेसी 732618वाई     | 01 सितंबर 2016  |
| हवलदार एस एच टी                                                                                     | मखन लाल गुप्ता            | 6932320के      | अब जेसी 732619एफ      | 01 सितंबर 2016  |
| हवलदार क्लर्क एस डी                                                                                 | विष्णु दयाल वर्मा         | 6938801एम      | अब जेसी 732620डब्ल्यू | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी                                                                                 | अरविंद कुमार              | 6938806एल      | अब जेसी 732621वाई     | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी                                                                                 | सुमंता मंडल               | 6938826वाई     | अब जेसी 732622एफ      | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी                                                                                 | बिमल कुमार                | 6938832एम      | अब जेसी 732623के      | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क एस डी                                                                                 | दिलीप कुमार सामल          | 6938835ए       | अब जेसी 732624एम      | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                                                                                 | परनब दास                  | 6936392एल      | अब जेसी 732625पी      | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                                                                                 | प्रवीन कुमार सिंह         | 6937024एच      | अब जेसी 732626एक्स    | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                                                                                 | बठिया उमेश कुमार धनजी भाई | 6937037ए       | अब जेसी 732627ए       | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                                                                                 | सुजीत कुमार               | 6937043एन      | अब जेसी 732628एच      | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                                                                                 | शिंदे वसंत नारायण         | 6937059वाई     | अब जेसी 732629एल      | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                                                                                 | ब्रिज राज प्रसाद          | 6937062वाई     | अब जेसी 732630ए       | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                                                                                 | सुखदेव सिंह               | 6937072एच      | अब जेसी 732631एच      | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                                                                                 | सुखदेव सिंह               | 6937077एफ      | अब जेसी 732632एल      | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                                                                                 | खेम राज                   | 6937116पी      | अब जेसी 732633एन      | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                                                                                 | राजा राम गुर्जर           | 6937124एन      | अब जेसी 732634डब्ल्यू | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार एस के टी एम टी                                                                               | शिव शंकर सिंह             | 6935393एफ      | अब जेसी 732635वाई     | 20 अक्टूबर 2016 |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी |                           |                |                       |                 |
| हवलदार एस एच जी डी                                                                                  | राम सिंह यादव             | 6934883एच      | अब जेसी 732636एफ      | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार एस एच टी                                                                                     | सकल देव कुमार             | 6932503ए       | अब जेसी 732637के      | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार एस एच टी                                                                                     | राम प्रवेश सिंह           | 6932504एच      | अब जेसी 732638एम      | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                                                                                 | यादव रमेश चंद्र मुर्लीधर  | 6937006ए       | अब जेसी 732639पी      | 05 नवंबर 2016   |
| *नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी |                           |                |                       |                 |
| हवलदार क्लर्क आई एम                                                                                 | लाल चंद गुप्ता            | 6936951के      | अब जेसी 732640के      | 01 अक्टूबर 2016 |
| हवलदार एस के टी एम टी                                                                               | रशिद हुसैन                | 6936945डब्ल्यू | अब जेसी 732641एम      | 15 अक्टूबर 2016 |
| नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी  |                           |                |                       |                 |
| हवलदार टेलर                                                                                         | नंदा बल्लब                | 6936027के      | अब जेसी 732642पी      | 18 अक्टूबर 2016 |
| नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जायेगी  |                           |                |                       |                 |
| हवलदार ए टी                                                                                         | रणजीत कुमार सिंह          | 6940540एच      | अब जेसी 732643एक्स    | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार ए टी                                                                                         | ब्रंदावन पटसानी           | 6940565पी      | अब जेसी 732644ए       | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार क्लर्क एस डी                                                                                 | अमिनुर इसलाम              | 6938836एच      | अब जेसी 732645एच      | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार क्लर्क एस डी                                                                                 | अनिरुधा सवैन              | 6938850पी      | अब जेसी 732646एन      | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार क्लर्क एस डी                                                                                 | रामजी लाल                 | 6938853एच      | अब जेसी 732647एन      | 01 नवंबर 2016   |

|                                                 |                              |                |                       |                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| हवलदार कर्लक एस डी                              | आशुतोष सिंह                  | 6938925एफ      | अब जेसी 732648डब्ल्यू | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार कर्लक आई एम                              | शाजी वडके पुतीयादाथिल        | 6937167एच      | अब जेसी 732649वाई     | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार कर्लक आई एम                              | दलबिंदर सिंह सुम्बरीया       | 6937169एन      | अब जेसी 732650एन      | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार कर्लक आई एम                              | नरेंद्र सिंह पाल             | 6937171एल      | अब जेसी 732651डब्ल्यू | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार कर्लक आई एम                              | विजय कुमार                   | 6937182एक्स    | अब जेसी 732652वाई     | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार कर्लक आई एम                              | प्रदीप कुमार के आर           | 6937185एल      | अब जेसी 732653एफ      | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार कर्लक आई एम                              | ब्रंदा जया प्रकाश सुर्जी भाई | 6936760पी      | अब जेसी 732654के      | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार कर्लक आई एम                              | किशोर कुमार आर               | 6936906एक्स    | अब जेसी 732655एम      | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार कर्लक आई एम                              | सुरेंद्र सिंह तंवर           | 6937013डब्ल्यू | अब जेसी 732656पी      | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार कर्लक आई एम                              | राम लखन                      | 6937194एम      | अब जेसी 732657एक्स    | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार कर्लक आई एम                              | अमरजीत सिंह                  | 6937198एच      | अब जेसी 732658ए       | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार कर्लक आई एम                              | विजय कुमार मौर्या            | 6937253एन      | अब जेसी 732659एच      | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार कर्लक आई एम                              | आर जया कुमार                 | 6937274के      | अब जेसी 732660एक्स    | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार एस के टी सिग्नल दीन बन्धु                |                              | 6933993एल      | अब जेसी 732661ए       | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार एस के टी एम टी दीपक चर्तुवेदी            |                              | 6936962डब्ल्यू | अब जेसी 732662एच      | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार एस के टी एम टी मनोज कुमार                |                              | 6936946वाई     | अब जेसी 732663एल      | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार एस के टी एम टी सत्यवीर यादव              |                              | 6934739एन      | अब जेसी 732664एन      | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार एस के टी एम्युनेशन रणजीत सिंह सैनी       |                              | 6937637एच      | अब जेसी 732665डब्ल्यू | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार एस के टी एम्युनेशन वायादंडे धनजी जगन्नाथ |                              | 6940231ए       | अब जेसी 732666वाई     | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार डराइवर एम टी                             | सदन सिंह                     | 6934457पी      | अब जेसी 732667एफ      | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार एस एच जी डी                              | एम प्रभु                     | 6934378ए       | अब जेसी 732668ए       | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार एस एच जी डी                              | राम सूचित साह                | 6934889के      | अब जेसी 732669एम      | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार एस एच टी                                 | आनंद सिंह                    | 6932565ए       | अब जेसी 732670एफ      | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदारपेंटर डेकोरेटर                            | पी एस नागाराजन               | 6935942डब्ल्यू | अब जेसी 732671के)     | 01 नवंबर 2016   |
| हवलदार कर्लक आई एम                              | राजा डी                      | 6937161एफ      | अब जेसी 732674एक्स    | 28 अक्तूबर 2016 |

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्तूबर 2016 से दी जायेगी

|                                               |                |                 |                  |               |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| हवलदार एस के टी जी एस एंड सी पोदीली दीना बंधु | 6931978एक्स    | अब जेसी 732675ए | 01 नवंबर 2016    |               |
| हवलदार ए टी                                   | जितेंद्र पाटिल | 6940553ए        | अब जेसी 732676एच | 01 नवंबर 2016 |

थल सेना विभाग

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

कवचित कोर

स्थायी रिसालदार मेजर के रैंक में

|          |                      |                 |                 |
|----------|----------------------|-----------------|-----------------|
| रिसालदार | धरमेन्द्र सिंह       | (जेसी—243094ए)  | 01 मई 2017      |
| रिसालदार | तारकेश्वर राव चिचुला | (जेसी—243745एल) | 01 मार्च 2017   |
| रिसालदार | सुखदेव सिंह अथवाल    | (जेसी—243858एन) | 01 जुलाई 2017   |
| रिसालदार | कुलदीप               | (जेसी—244015एम) | 01 सितम्बर 2016 |

|                                                                                                        |                 |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| रिसालदार                                                                                               | बिजेन्द्र पाल   | (जेसी-243969एल)      | 01 जून 2017     |
| रिसालदार/ क्लर्क                                                                                       | हरीष कुमार      | (जेसी-241671एच)      | *03 नवम्बर 2016 |
| *(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है) |                 |                      |                 |
| रिसालदार                                                                                               | अंगद सिंह यादव  | (जेसी-243439डब्ल्यू) | 01 मई 2017      |
| रिसालदार                                                                                               | बिरेन्द्र कुमार | (जेसी-244248एन)      | 01 दिसम्बर 2016 |

## स्थाई रिसालदार मेजर के रैंक में

|                  |                       |                      |                 |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| रिसालदार         | सुखविंदर सिंह         | (जेसी-243720वाई)     | 01 दिसम्बर 2016 |
| रिसालदार         | सतीश कुमार            | (जेसी-243568डब्ल्यू) | 01 अप्रैल 2017  |
| रिसालदार         | एन अजीत कुमार         | (जेसी-243971एच)      | 01 मई 2017      |
| रिसालदार         | सुरिन्दर सिंह         | (जेसी-244308एक्स)    | 01 फरवरी 2017   |
| रिसालदार/ क्लर्क | राकेश बी              | (जेसी-245278एक्स)    | 01 जून 2017     |
| रिसालदार/ क्लर्क | बहीवाल संदीप किशन राव | (जेसी-241739वाई)     | 01 अप्रैल 2017  |
| रिसालदार/ क्लर्क | दलीप सिंह             | (जेसी-244927एल)      | 01 जून 2017     |
| रिसालदार         | सुजान सिंह            | (जेसी-244232एच)      | 01 मई 2017      |
| रिसालदार         | अनिल                  | (जेसी-243661एक्स)    | 01 मई 2017      |
| रिसालदार         | जय पाल सिंह           | (जेसी-243746एन)      | 01 अप्रैल 2017  |
| रिसालदार         | श्याम सुंदर शर्मा     | (जेसी-244400डब्ल्यू) | 01 मई 2017      |

## स्थाई रिसालदार मेजर धर्मशिक्षक के रैंक में

|                  |          |                 |                |
|------------------|----------|-----------------|----------------|
| रिसालदार (पंडित) | बिशन दास | (जेसी-235666एफ) | 01 अप्रैल 2017 |
|------------------|----------|-----------------|----------------|

## विशेष सूची

## कवचित कोर

## स्थाई रिसालदार धर्मशिक्षक के रैंक में

|                                                                                                    |                          |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| नायब रिसालदार (ग्रंथी)                                                                             | सुखविंदर सिंह            | (जेसी-241229एक्स) | *05 जनवरी 2017 |
| *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2016 से दी जाती है) |                          |                   |                |
| नायब रिसालदार (पंडित)                                                                              | शिव शंकर त्रिपाठी        | (जेसी-241401एन)   | *24 फरवरी 2017 |
| (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2017 से दी जाती है)    |                          |                   |                |
| नायब रिसालदार (पंडित)                                                                              | राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा  | (जेसी-241722एल)   | 01 जुलाई 2017  |
| नायब रिसालदार (पंडित)                                                                              | रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी | (जेसी-241721एच)   | 01 जुलाई 2017  |

## स्थाई रिसालदार के रैंक में

|                                                                                                |                 |                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| नायब रिसालदार                                                                                  | संजय कुमार यादव | (जेसी 245529डब्ल्यू) | 01 अगस्त 2017   |
| नायब रिसालदार                                                                                  | अजीत सिंह यादव  | (जेसी 245884एन)      | 01 अगस्त 2017   |
| नायब रिसालदार/ क्लर्क                                                                          | सेखर सी         | (जेसी 246445पी)      | 01 सितम्बर 2017 |
| नायब रिसालदार                                                                                  | यशवंत सिंह      | (जेसी 246071के)      | *17 अगस्त 2017  |
| रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2017 से दी जाती है) |                 |                      |                 |
| नायब रिसालदार                                                                                  | राम दास         | (जेसी 245570एम)      | 01 जून 2017     |
| नायबरिसालदार                                                                                   | लक्ष्मण सिंह    | (जेसी 245495एन)      | 01 अगस्त 2017   |
| नायब रिसालदार                                                                                  | नारायण जेना     | (जेसी 246242एल)      | 01 अगस्त 2017   |
| नायब रिसालदार                                                                                  | मुनेश्वर सिंह   | (जेसी 245231एम)      | 01 अगस्त 2017   |
| नायब रिसालदार                                                                                  | गुलाब मुस्तफा   | (जेसी 245134एन)      | 01 अगस्त 2017   |

|                                                                                                        |                       |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| * (रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2017 से दी जाती है)      |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार                                                                                          | के मोहन कुमार         | (जेसी 245540पी)      | 07 अगस्त 2017    |
| नायब रिसालदार                                                                                          | पुरुषोत्तम दास शुक्ला | (जेसी 246603वाई)     | 01 अप्रैल 2017   |
| नायब रिसालदार                                                                                          | विजय श्याम सिंह       | (जेसी 245717एक्स)    | 01 मार्च 2017    |
| नायब रिसालदार                                                                                          | खेमपाल सिंह           | (जेसी 244954पी)      | *12 फरवरी 2017   |
| रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2017 से दी जाती है)         |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार                                                                                          | विरेन्द्र सिंह        | (जेसी 245337वाई)     | *05 जून 2015     |
| *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जाती है)         |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार                                                                                          | थिरुनवककरासू          | (जेसी 244249डब्ल्यू) | *01 जनवरी 2015   |
| रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)        |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार                                                                                          | जयवीर सिंह            | (जेसी 246145एन)      | *12 जून 2015     |
| रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मई 2015 से दी जाती है)            |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार                                                                                          | के जी वि वि क्रिश्ना  | (जेसी 244786एफ)      | *02 दिसम्बर 2013 |
| *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अक्टूबर 2013 से दी जाती है)     |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार                                                                                          | राधा मोहन सिंह        | (जेसी 245334एल)      | *09 जनवरी 2015   |
| *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)       |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार/ क्लर्क                                                                                  | धरम राज द्विवेदी      | (जेसी 246444एम)      | *16 जून 2017     |
| *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2017 से दी जाती है)         |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार                                                                                          | सुरेन्द्र कुमार       | (जेसी 246345के)      | 01 जुलाई 2017    |
| नायब रिसालदार                                                                                          | राजेश कुमार           | (जेसी 246141एक्स)    | *11 मई 2017      |
| *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2017 से दी जाती है)          |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार                                                                                          | अनिल कुमार के वी      | (जेसी 245917एन)      | 01 जून 2017      |
| नायब रिसालदार                                                                                          | सतवंत सिंह            | (जेसी 245647के)      | 01 जुलाई 2017    |
| नायब रिसालदार                                                                                          | सत्येन्द्र कुमार      | (जेसी 245792एफ)      | 01 जुलाई 2017    |
| नायब रिसालदार                                                                                          | पबित्रा गोगई          | (जेसी 245508ए)       | *03 मई 2017      |
| *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2017 से दी जाती है)          |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार                                                                                          | दशरथन ए               | (जेसी 245205एल)      | *15 जुलाई 2017   |
| *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2017 से दी जाती है)       |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार                                                                                          | सुखबीर सिंह           | (जेसी 245577डब्ल्यू) | *04 जून 2017     |
| *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2017 से दी जाती है)         |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार                                                                                          | गुरजंत सिंह           | (जेसी 245287वाई)     | 01 अप्रैल 2017   |
| नायब रिसालदार                                                                                          | शिव प्रताप सिंह       | (जेसी 245893पी)      | 01 जून 2017      |
| नायब रिसालदार                                                                                          | हरमीत सिंह            | (जेसी 245346ए)       | 01 मई 2017       |
| नायब रिसालदार                                                                                          | पिताबासा साहू         | (जेसी 245627डब्ल्यू) | *19 जून 2017     |
| *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2017 से दी जाती है)         |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार                                                                                          | अर्जला धर्मा राव      | (जेसी 245398डब्ल्यू) | *19 जून 2017     |
| *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अप्रैल 2017 से दी जाती है) |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार                                                                                          | के व्यंकटेशन          | (जेसी 245029वाई)     | 01 अप्रैल 2017   |
| नायब रिसालदार                                                                                          | अजीत बहादुर सिंह      | (जेसी 245892एम)      | 01 जून 2017      |
| नायबरिसालदार                                                                                           | ठाकोर भालाजी जवानजी   | (जेसी 245116एम)      | *08 अप्रैल 2017  |
| *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2017 से दी जाती है) |                       |                      |                  |
| नायब रिसालदार                                                                                          | सुशिल सिंह            | (जेसी 245316एच)      | 01 अप्रैल 2017   |
| नायब रिसालदार                                                                                          | बिमन कुमार जना        | (जेसी 245781पी)      | 01 जुलाई 2017    |
| नायब रिसालदार                                                                                          | कमल देव प्रसाद        | (जेसी 245699ए)       | *08 फरवरी 2017   |

|                                                                                                    |            |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2016 से दी जाती है) |            |                 |              |
| नायब रिसालदार                                                                                      | जगजीत सिंह | (जेसी 245472एम) | *27 जून 2017 |
| *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2017 से दी जाती है)     |            |                 |              |

## नायब रिसालदार के रैंक में

|                                                                                                       |                             |                                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| दफादार                                                                                                | उदधाब लासकर                 | (सं. 15469808डब्ल्यू अब जेसी-247546पी) | *29 अगस्त 2017  |
| *नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अगस्त 2017 से दी जाती है)  |                             |                                        |                 |
| दफादार                                                                                                | चन्दर शेखर                  | (सं. 15470454एल अब जेसी-247532पी)      | 01 सितम्बर 2017 |
| दफादार                                                                                                | सुनिल कुमार                 | (सं. 15470455एन अब जेसी-247577पी)      | 01 सितम्बर 2017 |
| दफादार/क्लर्क                                                                                         | प्रमोद कुमार                | (सं. 15471365वाई अब जेसी-247544के)     | 01 सितम्बर 2017 |
| दफादार                                                                                                | मुथुमुला आर क्रिश्ना रेड्डी | (सं. 15467554एल अब जेसी-247550एक्स)    | 01 सितम्बर 2017 |
| दफादार                                                                                                | मोहम्मद बिलालउदीन           | (सं. 15464199एन अब जेसी-247555डब्ल्यू) | 01 सितम्बर 2017 |
| दफादार                                                                                                | जी बाला मृगन                | (सं. 15465918एन अब जेसी-247523एन)      | 01 सितम्बर 2017 |
| दफादार                                                                                                | विजय पाल                    | (सं. 15466074पी अब जेसी-247539वाई)     | 01 सितम्बर 2017 |
| दफादार                                                                                                | ज्ञान चन्द                  | (सं. 15466264एफ अब जेसी-247549एच)      | 01 सितम्बर 2017 |
| दफादार/एसकेटी                                                                                         | सुनिल कुमार                 | (सं. 15468740एन अब जेसी-247548ए)       | 01 सितम्बर 2017 |
| दफादार                                                                                                | जबार सिंह पनवर              | (सं. 15468775के अब जेसी-247537एन)      | 01 अगस्त 2017   |
| दफादार                                                                                                | रामेश्वर सिंह               | (सं. 15469462एक्स अब जेसी-247545एम)    | 01 सितम्बर 2017 |
| दफादार                                                                                                | महेन्द्र कुमार              | (सं. 15469842डब्ल्यू अब जेसी-247529पी) | *08 अगस्त 2017  |
| *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जुलाई 2017 से दी जाती है) |                             |                                        |                 |
| दफादार                                                                                                | जी राजेश                    | (सं. 15472528एन अब जेसी-247530के)      | 01 सितम्बर 2017 |
| दफादार                                                                                                | सुखविन्दर सिंह              | (सं. 15473269एच अब जेसी-247541डब्ल्यू) | 01 सितम्बर 2017 |
| दफादार                                                                                                | मुकेश कुमार                 | (सं. 15466719एम अब जेसी-247531एम)      | 01 सितम्बर 2017 |
| दफादार                                                                                                | कबुल सिंह                   | (सं. 15466800वाई अब जेसी-247527के)     | 01 अगस्त 2017   |
| दफादार                                                                                                | धरमेन्द्र कुमार             | (सं. 15468561एन अब जेसी-247547एक्स)    | 01 सितम्बर 2017 |
| दफादार                                                                                                | चिन्नाडी जे                 | (सं. 15464536एक्स अब जेसी-247576एम)    | *23 अगस्त 2017  |
| *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2017 से दी जाती है) |                             |                                        |                 |
| दफादार                                                                                                | राज कुमार                   | (सं. 15465837एन अब जेसी-247561के)      | *15 अगस्त 2017  |
| *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2017 से दी जाती है) |                             |                                        |                 |
| दफादार                                                                                                | गोपाल सिंह                  | (सं. 15469483एन अब जेसी-247488डब्ल्यू) | 01 जुलाई 2017   |
| दफादार                                                                                                | श्याम इंगी                  | (सं. 15469757एन अब जेसी-247491डब्ल्यू) | 01 जुलाई 2017   |
| दफादार                                                                                                | संजय कुमार बेहरा            | (सं. 15470193एच अब जेसी-247543एफ)      | 01 जुलाई 2017   |
| दफादार                                                                                                | बलजीत सिंह                  | (सं. 15468500डब्ल्यू अब जेसी-247442एन) | 01 जुलाई 2017   |
| दफादार                                                                                                | सुनिल कुमार                 | (सं. 15468272वाई अब जेसी-247499एच)     | 01 जुलाई 2017   |
| दफादार                                                                                                | किशोर रेवर                  | (सं. 15468371एफ अब जेसी-247542वाई)     | 01 जुलाई 2017   |
| दफादार                                                                                                | रमेश एम                     | (सं. 15468424पी अब जेसी-247500एम)      | 01 जुलाई 2017   |
| दफादार                                                                                                | अनिश कुमार                  | (सं. 15468460ए अब जेसी-247519एल)       | 01 जुलाई 2017   |
| दफादार                                                                                                | राजिन्दर सिंह               | (सं. 15467240के अब जेसी-247525वाई)     | 01 जुलाई 2017   |
| दफादार                                                                                                | विजय सिंह                   | (सं. 15467583ए अब जेसी-247486एल)       | 01 जुलाई 2017   |
| दफादार                                                                                                | दिगंबर नाथ                  | (सं. 15466100एल अब जेसी-247507डब्ल्यू) | 01 जून 2017     |

|                                                                                                        |                            |                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------|
| दफादार                                                                                                 | नेक राम                    | (सं. 15466147डब्ल्यू अब जेसी-247434पी) | 01 मई 2017     |
| दफादार                                                                                                 | प्रितम सिंह                | (सं. 15466635वाई अब जेसी-247506एन)     | *01 जून 2017   |
| *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अप्रैल 2017 से दी जाती है) |                            |                                        |                |
| दफादार                                                                                                 | क्रिशन पाल सिंह            | (सं. 15466896एम अब जेसी-247511वाई)     | 01 जुलाई 2017  |
| दफादार                                                                                                 | शंखेवार चन्द्र शेखर धनीराम | (सं. 15467221वाई अब जेसी-247487एन)     | 01 जुलाई 2017  |
| दफादार                                                                                                 | के रमेन सिंगा              | (सं. 15465045एन अब जेसी-247509एफ)      | *19 जून 2017   |
| *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2017 से दी जाती है)    |                            |                                        |                |
| दफादार                                                                                                 | सुरेश कुमार                | (सं. 15465076एन अब जेसी-247510डब्ल्यू) | 01 जुलाई 2017  |
| दफादार                                                                                                 | जनक सिंह सोलंकी            | (सं. 15465429एच अब जेसी-247490एन)      | 01 जुलाई 2017  |
| दफादार                                                                                                 | रंजीत कुमार                | (सं. 15465498वाई अब जेसी-247535एच)     | 21 जून 2017    |
| *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अप्रैल 2017 से दी जाती है) |                            |                                        |                |
| दफादार                                                                                                 | केवल सिंह                  | (सं. 15466012पी अब जेसी-247524डब्ल्यू) | *09 जून 2017   |
| *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2017 से दी जाती है)    |                            |                                        |                |
| दफादार                                                                                                 | मनीनाथ साहू                | (सं. 15466088पी अब जेसी-247433एम)      | 01 मई 2017     |
| दफादार                                                                                                 | सतीश सिंह                  | (सं. 15463453ए अब जेसी-247498ए)        | 01 जुलाई 2017  |
| दफादार                                                                                                 | उत्तम सिंह भदोरिया         | (सं. 15463990एल अब जेसी-247468एम)      | 01 जून 2017    |
| दफादार                                                                                                 | सुधीर कुमार सिंह           | (सं. 15464254वाई अब जेसी-247437एच)     | 01 जून 2017    |
| दफादार                                                                                                 | के सिवा                    | (सं. 15464510एच अब जेसी-247552एच)      | *19 जुलाई 2017 |
| *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2017 से दी जाती है)  |                            |                                        |                |
| दफादार                                                                                                 | इंद्र सिंह                 | (सं. 15472249एच अब जेसी-247494के)      | 01 जून 2017    |
| दफादार                                                                                                 | सुरिन्दर सिंह              | (सं. 15471071एल अब जेसी-247503ए)       | 01 जुलाई 2017  |
| दफादार/ क्लर्क                                                                                         | बिरेन राय बक्शी            | (सं. 15471131पी अब जेसी-247450एम)      | 01 जून 2017    |
| दफादार                                                                                                 | रोहताश कुमार               | (सं. 15471997के अब जेसी-247493एफ)      | *19 जून 2017   |
| *(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मार्च 2017 से दी जाती है)  |                            |                                        |                |
| दफादार                                                                                                 | श्रीजीत कुमार टी           | (सं. 15472130वाई अब जेसी-247492वाई)    | 01 जुलाई 2017  |
| दफादार                                                                                                 | राजेन्द्र सिंह             | (सं. 15472185एच अब जेसी-247456एन)      | 01 जून 2017    |

विशेष सूची

कवचित कोर

स्थाई नायब रिसालदार धर्मशिक्षक के रैंक में

|                      |                   |                 |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| संतोष कुमार द्विवेदी | (जेसी-247059पी)   | 26 सितम्बर 2015 |
| विनोद कुमार          | (जेसी-247185एफ)   | 01 अक्टूबर 2016 |
| दविन्दर सिंह         | (जेसी-247186के)   | 01 अक्टूबर 2016 |
| मनिश पाठक            | (जेसी-247370पी)   | 27 मई 2017      |
| दिलीप कुमार शुक्ला   | (जेसी-247340एक्स) | 11 फरवरी 2017   |
| राहुल कुमार तिवारी   | (जेसी-247187एम)   | 01 अक्टूबर 2016 |
| अदित्या कुमार शुक्ला | (जेसी-247339एच)   | 11 फरवरी 2017   |

अनुराग शर्मा  
अवर सचिव

## थल सेना विभाग

सं. 279, दिनांक 29 नवम्बर 2017—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनके निजी कारणवश निवेदन पर समयपूर्व निवृत्ति, उनके नाम के समक्ष लिखी तिथि से, अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अस्थायी कमीशन)

निवृत्ति

| निजी संख्या   | रैंक   | नाम                 | सेवानिवृत्ति की तिथि |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| डी एस-12628पी | कप्तान | आदित्य रामभाई शर्मा | 12-08-2017 (प्रातः)  |

के जी कुमार देवैया  
ब्रिगेडियर  
डीडीजीडीएस (पी)

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

शुद्धि पत्र

सं. 280, दिनांक 30 नवम्बर 2017—दिनांक 12 नवम्बर 2016 को भारत सरकार के राजपत्रों में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेना – सैनिक दन्त चिकित्सा कोर, स्थायी कमीशन उपशीर्षक कैप्टन से मेजर के पद पर निम्नलिखित अधिकारी के संबंध में : —

के स्थान पर –कैप्टन से मेजर

| निजी संख्या  | नाम                      | पदोन्नति की तिथि |
|--------------|--------------------------|------------------|
| डीआर-10738एल | मेजर (सुश्री) समरदीप कौर | 28-03-2016       |

पढ़ा जाए—कैप्टन से मेजर

| निजी संख्या  | नाम                      | पदोन्नति की तिथि |
|--------------|--------------------------|------------------|
| डीआर-10738एल | मेजर (सुश्री) समरदीप कौर | 28-09-2015       |

के जी कुमार देवैया  
ब्रिगेडियर  
डीडीजीडीएस (पी)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16 December 2017

## ARMY BRANCH

No. 272, dated 20th November 2017—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended :—

## REGULAR ARMY

## ARMY DENTAL CORPS

## (SHORT SERVICE COMMISSION)

## ANTEDATE OF COMMISSION

DS-12613M Capt (Ms) Alisha Thakur - 09-05-2016

With seniority for pay and promotion from 09-11-2015 (includes 06 months antedate for holding appointment of Medical Officer (Dental) in Civil Hospital, Palampur, Kangra (HP) from 24 Mar 2015 to 04 May 2016, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 12 Nov 2016, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

To be Captain (On Probation)

(Antedate of Commission)

DS-12632X Capt Sandeep Singh Reyal - 28-12-2016

With seniority for pay and promotion from 28-12-2013 (36 months antedate for acquiring MDS Degree from HP Govt Dental College, Shimla, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 19 Aug 2017, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12620H Capt Puneet Dang - 28-12-2016

With seniority for pay and promotion from 28-12-2013 (36 months antedate for acquiring MDS Degree from Genesis Institute of Dental Sciences & Research, Ferozpur, Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 19 Aug 2017, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

The President is pleased to make the following appointment for a period of 05 years under 15/79, as amended and GOI MOD letter Nos.10 (3)(1)/05/D(Med) dated 28 Oct 05 as amended :—

## REGULAR ARMY

## ARMY DENTAL CORPS

## SHORT SERVICE COMMISSION

To be Captain (On Probation)

| Pers No   | Rank & Name                 | Dt of Commission |
|-----------|-----------------------------|------------------|
| DS-12646X | Capt Mohammad Sharif        | 21-03-17         |
| DS-12647A | Capt Rahul                  | 21-03-17         |
| DS-12648H | Capt Shubham Sharma         | 21-03-17         |
| DS-12649L | Capt Yadav Rekha Chintamani | 21-03-17         |
| DS-12650A | Capt Sunil Kumar Singh      | 21-03-17         |
| DS-12651H | Capt Noni Sharma            | 21-03-17         |
| DS-12652L | Capt Pragati Sharma         | 21-03-17         |

| Pers No   | Rank & Name        | Dt of Commission |
|-----------|--------------------|------------------|
| DS-12653N | Capt Anand AN      | 21-03-17         |
| DS-12654W | Capt Rishu Koul    | 21-03-17         |
| DS-12655Y | Capt Sapna Johnson | 29-04-17         |

KG KUMAR DEVAYYA  
Brig  
DDGDS (P)

### NATIONAL CADET CORPS

MS (D)

No. 273, dated 21st November 2017—The under mentioned Vice Chancellors are granted the honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and are appointed as Colonel Commandant of their respective Universities as shown against their name for the period of their appointment as Vice Chancellor of the said University.

| Name of the Vice Chancellor                     | Dte   | Name of the University                                  | Date of appointment as Vice Chancellor |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Prof (Dr) Suranjan Das<br>Vice Chancellor       | WB&S  | Jadavpur University, Kolkata                            | 16-07-2015                             |
| Prof (Dr) Sankar Kr Ghosh<br>Vice Chancellor    | -do-  | University of Kalyani, Kalyani - Nadia                  | 21-12-2016                             |
| Prof (Dr) Byju John<br>Vice Chancellor          | MP&CG | MATS University, Raipur                                 | 04-03-2015                             |
| Prof (Dr) Devanand B.Shinde<br>Vice Chancellor  | MAH   | Shivaji University, Kolhapur                            | 18-06-2015                             |
| Dr Siddharthavinayaka P.Kane<br>Vice Chancellor | -do-  | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Nagpur  | 08-04-2015                             |
| Dr Murlidhar Chandekar<br>Vice Chancellor       | -do-  | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati           | 02-06-2016                             |
| Dr Shashikala Wanjari<br>Vice Chancellor        | -do-  | SNDT Women's University, Mumbai                         | 03-07-2016                             |
| Prof BA Chopade<br>Vice Chancellor              | -do-  | Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad | 04-06-2014                             |

AK PANDEY  
Brig  
Dy Dir Gen (MS)

### MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 274, dated 22nd November 2017—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Brigadiers

| IC No.  | RANK   | NAME          | ARM | D.O. ACTG BRIG | D.O. SUBS BRIG |
|---------|--------|---------------|-----|----------------|----------------|
| V-00442 | A/BRIG | PRAMOD BATRA  | RVC | 31.03.16       | 01.04.16       |
| V-00447 | A/BRIG | B PARASANALLI | RVC | 15.07.16       | 15.07.16       |

DEBASIS PRADHAN  
Dy Dir MS(X)

## ARMY BRANCH

No. 275, dated 23rd November 2017—The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
(PERMANENT COMMISSION)  
Lt Col (& equiv) to be Col (& equiv)

| Pers No    | Rank   | Name             | Date of Promotion                                                                  |
|------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DR-10399W  | Lt Col | J Sengupta       | 15-07-2008 (with notional seniority 15-07-2008 without effect on pay & allowances) |
| DR- 10382H | Lt Col | HS Sandhu        | 12-05-2008 (with notional seniority 05-05-2008 without effect on pay & allowances) |
| DR- 10426P | Lt Col | Vineet Sharma    | 06-06-2008 (with notional seniority 06-05-2008 without effect on pay & allowances) |
| DR-10436Y  | Lt Col | PK Chattopadhyay | 06-06-2008 (with notional seniority 06-06-2008 without effect on pay & allowances) |

## Capt to be Major

| Pers No   | Rank | Name                | Dt of prom to the rank of Maj |
|-----------|------|---------------------|-------------------------------|
| DR-10741L | Capt | Ashish Goyal        | 23-12-16                      |
| DR-10742N | Capt | Rajat Lanzara       | 27-12-16                      |
| DR-10759F | Capt | (Ms) Praneet K Rana | 05-02-17                      |

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
SHORT SERVICE COMMISSION  
Capt to be Major

| Pers No   | Rank | Name                  | Date of promotion |
|-----------|------|-----------------------|-------------------|
| DS-12556W | Capt | Anson Jose            | 13-07-2016        |
| DS-12563M | Capt | Kishor Singh Bhandari | 13-07-2016        |
| DS-12470X | Capt | (Ms) Priyanka Malviya | 18-11-2016        |
| DS-12477F | Capt | Rahul Saini           | 12-01-2017        |

KG KUMAR DEVAYYA  
Brig  
DDGDS (P)

## NATIONAL CADET CORPS

No. 276, dated 24th November 2017—The President is pleased to make the following promotion from the date mentioned below against the name of the officer. Relative seniority in the rank will be as indicated against officer's name below :—

NCC WHOLE TIME LADY OFFICERS  
(PERMANENT COMMISSIONED)

## Capt to Maj

| Rank and Name of the Offr             | Date of Promotion |
|---------------------------------------|-------------------|
| NCC/GD/PC-12527 Capt Sheela K Mathew  | 05 Jan 2017       |
| NCC/GD/PC-12529 Capt Geeta Srivastava | 21 Dec 2016       |
| NCC/GD/PC-12530 Capt Poornima S       | 27 Dec 2016       |
| NCC/GD/PC-12531 Capt Rehana Pravin    | 27 Dec 2016       |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| NCC/GD/PC-12533 Capt Anuja Chaturvedi   | 27 Dec 2016 |
| NCC/GD/PC-12534 Capt Krishna Dubey      | 24 Dec 2016 |
| NCC/GD/PC-12535 Capt Maya Develkar      | 10 Jan 2017 |
| NCC/GD/PC-12536 Capt Lovy Sharma        | 27 Dec 2016 |
| NCC/GD/PC-12537 Capt Pushpa Giridhar    | 27 Dec 2016 |
| NCC/GD/PC-12538 Capt Durga Suresh       | 27 Dec 2016 |
| NCC/GD/PC-12539 Capt Pritpal Kaur       | 27 Dec 2016 |
| NCC/GD/PC-12540 Capt Santosh Khatri     | 27 Dec 2016 |
| NCC/GD/PC-12541 Capt V Kalaivani        | 27 Dec 2016 |
| NCC/GD/PC-12543 Capt Brakha Gurbakshani | 27 Dec 2016 |

RAVINDER KUMAR  
Col  
Director (MS)

#### ARMY BRANCH

No. 277, dated 27th November 2017—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### INFANTRY

#### THE JAT REGIMENT

To be Sub Maj

|                                                                                                  |                          |              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| Sub                                                                                              | Jugbir Singh             | (JC-490142K) | 1 <sup>st</sup> Jan 2015    |
| Sub                                                                                              | Baljit Singh             | (JC-489582L) | 2 <sup>nd</sup> Feb 2015*   |
| *Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Feb 2015 without effect on pay & allowances.  |                          |              |                             |
| Sub                                                                                              | Parmod Kumar             | (JC-489770M) | 1 <sup>st</sup> Mar 2015    |
| Sub                                                                                              | Surender Pal Singh Rathi | (JC-489663L) | 1 <sup>st</sup> Apr 2015    |
| Sub                                                                                              | Bijendra Singh           | (JC-489650N) | 1 <sup>st</sup> Apr 2015    |
| Sub                                                                                              | Jaipal Singh             | (JC-489759N) | 1 <sup>st</sup> Apr 2015    |
| Sub                                                                                              | Sanjive Kumar            | (JC-489835P) | 1 <sup>st</sup> Apr 2015    |
| Sub                                                                                              | Ram Niwas Solanki        | (JC-489807H) | 1 <sup>st</sup> June 2015   |
| Sub                                                                                              | Umed Singh               | (JC-489836X) | 27 <sup>th</sup> July 2015* |
| *Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 July 2015 without effect on pay & allowances. |                          |              |                             |
| Sub                                                                                              | Dal Chand                | (JC-489921A) | 1 <sup>st</sup> Aug 2015    |
| Sub                                                                                              | Ajit Singh               | (JC-489853X) | 1 <sup>st</sup> Sep 2015    |
| Sub                                                                                              | Anil Kumar Bagaria       | (JC-489975F) | 1 <sup>st</sup> Oct 2015    |
| Sub                                                                                              | Dharamveer               | (JC-490070L) | 1 <sup>st</sup> Oct 2015    |
| Sub                                                                                              | Ranvir Singh Jat         | (JC-490035H) | 2 <sup>nd</sup> Nov 2015*   |
| *Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Nov 2015 without effect on pay & allowances.  |                          |              |                             |
| Sub Clk                                                                                          | Avaya Kumar Swain        | (JC-488879A) | 3 <sup>rd</sup> Feb 2012*   |
| *Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Nov 2011 without effect on pay & allowances.  |                          |              |                             |
| Sub Clk                                                                                          | Rohitash Kumar Mavi      | (JC-488833X) | 2 <sup>nd</sup> July 2012*  |
| *Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 July 2012 without effect on pay & allowances. |                          |              |                             |
| Sub Clk                                                                                          | Adarsh Kumar             | (JC-489231W) | 19 <sup>th</sup> Jan 2013*  |
| *Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Aug 2012 without effect on pay & allowances.  |                          |              |                             |
| Sub Clk                                                                                          | Randhir                  | (JC-489648W) | 1 <sup>st</sup> Dec 2013    |
| Sub Clk                                                                                          | RNJP Raju                | (JC-489969N) | 1 <sup>st</sup> June 2014   |

|                                                                                                 |                         |              |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|
| Sub Clk                                                                                         | A Veerasamy             | (JC-490389L) | 1 <sup>st</sup> Apr 2015   |
| Sub Clk                                                                                         | Sukhdev Singh           | (JC-490390A) | 1 <sup>st</sup> July 2015  |
| Sub Clk                                                                                         | Purushothaman Panakkada | (JC-490450K) | 1 <sup>st</sup> Oct 2015   |
| Sub Clk                                                                                         | Rajesh Kumar Sharma     | (JC-490586N) | 3 <sup>rd</sup> Mar 2016*  |
| *Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Mar 2016 without effect on pay & allowances. |                         |              |                            |
| Sub Clk                                                                                         | Madhu Soodhanan Nair V  | (JC-490587W) | 1 <sup>st</sup> Aug 2016   |
| Sub Musn                                                                                        | Banvir Kumar            | (JC-489767M) | 5 <sup>th</sup> May 2011*  |
| *Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Apr 2011 without effect on pay & allowances. |                         |              |                            |
| Sub Musn                                                                                        | Ramesh Singh            | (JC-489607M) | 21 <sup>st</sup> Feb 2013* |
| *Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Feb 2013 without effect on pay & allowances. |                         |              |                            |
| Sub Musn                                                                                        | Chandan Singh Rana      | (JC-489970H) | 21 <sup>st</sup> Feb 2013* |
| *Gtd seniority in the rank of Subedar Major wef 01 Feb 2013 without effect on pay & allowances. |                         |              |                            |

## To be Nb Sub

|                                                                                                |                       |                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| Hav                                                                                            | Narendra Singh        | (No 3188383P now JC-491631F) | 27 <sup>th</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Gyanedar Kumar        | (No 3189233L now JC-491632K) | 31 <sup>st</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Shivji Ram            | (No 3188450P now JC-491633M) | 1 <sup>st</sup> Dec 2016*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 Nov 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Hans Ram              | (No 3188661X now JC-491634P) | 17 <sup>th</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 Nov 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Jeet Singh            | (No 3189656Y now JC-491635X) | 26 <sup>th</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Laxman Ram Riyad      | (No 3188568W now JC-491636A) | 27 <sup>th</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Fateh Singh           | (No 3188769P now JC-491637H) | 27 <sup>th</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Arvind Singh          | (No 3189322K now JC-491638L) | 17 <sup>th</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Ashok Kumar           | (No 3194780K now JC-491639N) | 1 <sup>st</sup> Jan 2017   |
| Hav                                                                                            | Kuldeep               | (No 3188158A now JC-491640H) | 1 <sup>st</sup> Jan 2017   |
| Hav                                                                                            | Goverdhan Singh Moond | (No 3188277W now JC-491641L) | 1 <sup>st</sup> Jan 2017   |
| Hav                                                                                            | Ajeet Singh           | (No 3188886A now JC-491622A) | 9 <sup>th</sup> Dec 2016*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Sita Ram              | (No 3189368M now JC-491623H) | 2 <sup>nd</sup> Dec 2016*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Bhinya Ram Chaudhary  | (No 3190577W now JC-491624L) | 12 <sup>th</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Suresh Chandra        | (No 3189846L now JC-491625N) | 1 <sup>st</sup> Dec 2016   |
| Hav                                                                                            | Prema Ram             | (No 3189908A now JC-491626W) | 1 <sup>st</sup> Dec 2016   |
| Hav                                                                                            | Ram Sajiwan Prajapati | (No 3190515W now JC-491627Y) | 1 <sup>st</sup> Dec 2016   |
| Hav                                                                                            | Jai Kumar             | (No 3186046F now JC-491628F) | 24 <sup>th</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 02 Dec 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav Clk                                                                                        | Shiv Balak Singh      | (No 3189642Y now JC-491629K) | 4 <sup>th</sup> Nov 2016*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav Clk                                                                                        | Rajinder Kumar        | (No 3191343Y now JC-491630Y) | 22 <sup>nd</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 20 Nov 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |

|                                                                                                 |                         |                              |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Hav                                                                                             | Kuldeep Singh           | (No 3205095F now JC-491682P) | 30 <sup>th</sup> Mar 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2016 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Lal Chand               | (No 3188427F now JC-491683X) | 1 <sup>st</sup> Jan 2017   |
| Hav                                                                                             | Devindra Kumar          | (No 3189235W now JC-491684A) | 22 <sup>nd</sup> Mar 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 10 Jan 2017 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Wazir Singh             | (No 3187767X now JC-491685H) | 16 <sup>th</sup> Mar 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2017 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Balveer Singh Dhindhwal | (No 3189531F now JC-491686L) | 6 <sup>th</sup> Feb 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2017 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Amarpal Singh           | (No 3189206F now JC-491687N) | 18 <sup>th</sup> Mar 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 12 Feb 2017 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Prem Singh              | (No 2600109K now JC-491688W) | 6 <sup>th</sup> Apr 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2017 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Ombir Singh             | (No 3187677W now JC-491689Y) | 1 <sup>st</sup> Mar 2017   |
| Hav                                                                                             | Randhir Singh           | (No 3187711L now JC-491690N) | 15 <sup>th</sup> Mar 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2017 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Maya Ram                | (No 3187865X now JC-491691W) | 1 <sup>st</sup> Mar 2017   |
| Hav                                                                                             | Kul Deep                | (No 3188512K now JC-491692Y) | 1 <sup>st</sup> Mar 2017   |
| Hav                                                                                             | Bhawani Singh           | (No 3188337A now JC-491693F) | 1 <sup>st</sup> Mar 2017   |
| Hav                                                                                             | Vedveer Singh           | (No 3190038A now JC-491694K) | 4 <sup>th</sup> Mar 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2017 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Bhanwar Lal             | (No 3190495N now JC-491695M) | 16 <sup>th</sup> Mar 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2017 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Harendra Singh          | (No 3188182W now JC-491696P) | 19 <sup>th</sup> Apr 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 25 Mar 2017 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Raj Pal                 | (No 3189578M now JC-491697X) | 26 <sup>th</sup> Apr 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2017 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Subhash                 | (No 3190541X now JC-491698A) | 01 Apr 2017                |
| Hav                                                                                             | Bihari Lal              | (No 3191630H now JC-491596K) | 11 <sup>th</sup> Nov 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2015 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Ramawatar               | (No 3187551W now JC-491597M) | 12 <sup>th</sup> Oct 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 July 2016 without effect on pay & allowances. |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Shishupal Singh         | (No 3189883Y now JC-491598P) | 18 <sup>th</sup> Oct 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 July 2016 without effect on pay & allowances. |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Bhagwanta Ram           | (No 3188790X now JC-491599X) | 10 <sup>th</sup> Nov 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 31 July 2016 without effect on pay & allowances. |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Raj Pal                 | (No 3189895N now JC-491600F) | 11 <sup>th</sup> Nov 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 07 Aug 2016 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Inderjeet Singh         | (No 4077465Y now JC-491601K) | 17 <sup>th</sup> Nov 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 04 Sep 2016 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Harphool Singh          | (No 3189210K now JC-491602M) | 10 <sup>th</sup> Nov 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 17 Sep 2016 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Prem Chand              | (No 3189248N now JC-491603P) | 10 <sup>th</sup> Nov 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 18 Sep 2016 without effect on pay & allowances.  |                         |                              |                            |
| Hav                                                                                             | Girdhari Lal Jat        | (No 3186075W now JC-491604X) | 1 <sup>st</sup> Nov 2016   |
| Hav                                                                                             | Dilbag Singh            | (No 3188130A now JC-491605A) | 1 <sup>st</sup> Nov 2016   |
| Hav                                                                                             | Mahendra Kumar Gadhwai  | (No 3188335P now JC-491606H) | 1 <sup>st</sup> Nov 2016   |

|                                                                                                |                       |                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| Hav Clk                                                                                        | Manoj Kumar Mishra    | (No 3190409X now JC-491607L) | 29 <sup>th</sup> Oct 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav Clk                                                                                        | Sree Kumar S          | (No 3191304A now JC-491608N) | 1 <sup>st</sup> Nov 2016   |
| Hav                                                                                            | Surendra Singh        | (No 3188592M now JC-491642N) | 10 <sup>th</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Yogesh Singh          | (No 3187699P now JC-491643W) | 6 <sup>th</sup> Jan 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Saresh Kumar          | (No 3188913Y now JC-491644Y) | 21 <sup>st</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Shiv Pal Singh        | (No 3187937W now JC-491645F) | 3 <sup>rd</sup> Nov 2016*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Bhoma Ram Choudhary   | (No 3189911A now JC-491646K) | 21 <sup>st</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 04 Nov 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Virender Singh        | (No 4077990P now JC-491647M) | 1 <sup>st</sup> Jan 2017   |
| Hav                                                                                            | Jitendar Kumar Duhoon | (No 3186890K now JC-491648P) | 2 <sup>nd</sup> Jan 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2017 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Narender Kumar        | (No 3187056X now JC-491649X) | 2 <sup>nd</sup> Jan 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2017 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Rajendra Singh Verma  | (No 3188627X now JC-491650M) | 1 <sup>st</sup> Jan 2017   |
| Hav                                                                                            | Rajveer Singh         | (No 3188798K now JC-491651P) | 11 <sup>th</sup> Jan 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2017 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Rakesh Kumar          | (No 3193924P now JC-491652X) | 13 <sup>th</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2015 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Rajendra Singh        | (No 3187525P now JC-491653A) | 1 <sup>st</sup> Feb 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 17 Aug 2015 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Ram Niwas             | (No 3196148L now JC-491654H) | 31 <sup>st</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 18 Jul 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Ashok Kumar           | (No 3187984N now JC-491655L) | 31 <sup>st</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Ram Ratan             | (No 3188195N now JC-491656N) | 6 <sup>th</sup> Feb 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Suresh Chand          | (No 3188403X now JC-491657W) | 31 <sup>st</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Vinod Kumar           | (No 2792269W now JC-491658Y) | 31 <sup>st</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Shish Pal Singh       | (No 3189346N now JC-491659F) | 31 <sup>st</sup> Dec 2016* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 18 Sep 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Bal Raj               | (No 3187311Y now JC-491660W) | 4 <sup>th</sup> Jan 2017   |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Sugana Ram            | (No 2600439H now JC-491661Y) | 26 <sup>th</sup> Jan 2017  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Sohan Singh           | (No 3187334A now JC-491662F) | 22 <sup>th</sup> Dec 2016  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2016 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Nirapati Singh        | (No 3187427P now JC-491663K) | 25 <sup>th</sup> Jan 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2017 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Sukhbir               | (No 3187430P now JC-491664M) | 25 <sup>th</sup> Jan 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2017 without effect on pay & allowances. |                       |                              |                            |

|                                                                                                |                      |                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| Hav                                                                                            | Yogendra Singh       | (No 3188063A now JC-491665P) | 7 <sup>th</sup> Feb 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2017 without effect on pay & allowances. |                      |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Yog Vir Singh        | (No 3195164W now JC-491666X) | 4 <sup>th</sup> Feb 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 05 Jan 2017 without effect on pay & allowances. |                      |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Om Prakash           | (No 3190059W now JC-491667A) | 11 <sup>th</sup> Feb 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 06 Jan 2017 without effect on pay & allowances. |                      |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Devendra Singh       | (No 4078001N now JC-491668H) | 2 <sup>nd</sup> Feb 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 Jan 2017 without effect on pay & allowances. |                      |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Dambar Singh         | (No 2600891X now JC-491669L) | 2 <sup>nd</sup> Feb 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 Jan 2017 without effect on pay & allowances. |                      |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Poonma Ram           | (No 3187138A now JC-491670A) | 13 <sup>th</sup> Feb 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 Jan 2017 without effect on pay & allowances. |                      |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Dharm Veer Singh     | (No 3188891L now JC-491671H) | 27 <sup>th</sup> Feb 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 Jan 2017 without effect on pay & allowances. |                      |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Sudesh Kumar         | (No 3190070P now JC-491672L) | 6 <sup>th</sup> Feb 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 Jan 2017 without effect on pay & allowances. |                      |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Chuna Ram            | (No 3189749N now JC-491673N) | 25 <sup>th</sup> Jan 2017* |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 Jan 2017 without effect on pay & allowances. |                      |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Pardeep Kumar        | (No 3189954P now JC-491674W) | 2 <sup>nd</sup> Feb 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2017 without effect on pay & allowances. |                      |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Rajbir Singh Garhwal | (No 3189785Y now JC-491675Y) | 6 <sup>th</sup> Feb 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2017 without effect on pay & allowances. |                      |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Suresh Kumar Gurjar  | (No 3189801L now JC-491676F) | 9 <sup>th</sup> Feb 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2017 without effect on pay & allowances. |                      |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Dalbir Singh         | (No 3187391F now JC-491677K) | 3 <sup>rd</sup> Mar 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2017 without effect on pay & allowances. |                      |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Desh Raj             | (No 3187463A now JC-491678M) | 1 <sup>st</sup> Mar 2017   |
| Hav                                                                                            | Ramesh Kumar         | (No 3188718F now JC-491679P) | 8 <sup>th</sup> Mar 2017*  |
| *Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2017 without effect on pay & allowances. |                      |                              |                            |
| Hav                                                                                            | Vipin Kumar          | (No 3190216X now JC-491680K) | 1 <sup>st</sup> Mar 2017   |
| Hav (Clk)                                                                                      | Virendra Bhardwaj    | (No 3191369N now JC-491681M) | 1 <sup>st</sup> Feb 2017   |

## THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

|                                                                                                         |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nb Sub Roopendra Singh                                                                                  | (16022678W now JC-471867P) | 03 Dec 2016/*28 Sep 2015 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 <sup>th</sup> Sep 2015 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Inderjeet Singh                                                                                  | (2891026N now JC-471868X)  | 02 Nov 2016/*01 Jul 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jul 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Neeraj Chopra                                                                                    | (471869A now JC-471869A)   | 31 Dec 2016/*26 Aug 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 <sup>th</sup> Aug 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Gulijhari Lal Lamoria                                                                            | (2890607Y now JC-471870P)  | 27 Oct 2016/*01 Sep 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Sep 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Subhash Chandra                                                                                  | (2889865M now JC-471871X)  | 05 Dec 2016/*26 Sep 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 <sup>th</sup> Sep 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Kali Ram                                                                                         | (2890758X now JC-471872A)  | 31 Dec 2016/*28 Sep 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28 <sup>th</sup> Sep 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Musn Rajender                                                                                    | (2890429F now JC-471873H)  | 15 Mar 2017/*01 Oct 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Oct 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |

|                                                                                                         |                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nb Sub (RT) Sachindra Katare                                                                            | (471874L now JC-471874L)   | 07 Oct 2016              |
| Nb Sub Vikash Kumar                                                                                     | (2889709H now JC-471875N)  | 16 Nov 2016/*12 Oct 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 <sup>th</sup> Oct 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Naresh Singh, SM                                                                                 | (2890033X now JC-471876W)  | 19 Nov 2016/*01 Nov 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Nov 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Sant Kumar                                                                                       | (3994559M now JC-471877Y)  | 10 Nov 2016/*01 Nov 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Nov 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Ajit Singh                                                                                       | (2893779Y now JC-471878F)  | 17 Dec 2016/*01 Nov 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Nov 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Vijay Singh                                                                                      | (2890950F now JC-471879K)  | 28 Dec 2016/*01 Nov 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Nov 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Ran Singh                                                                                        | (2889546A now JC-471880Y)  | 04 Nov 2016/*01 Nov 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Nov 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Shimbhu Singh, SM                                                                                | (2891149A now JC-471881F)  | 01 Nov 2016              |
| Nb Sub Digambar Singh                                                                                   | (2890567H now JC-471882K)  | 03 Nov 2016/*01 Nov 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Nov 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Omvir Singh                                                                                      | (2890569N now JC-471883M)  | 03 Nov 2016/*01 Nov 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Nov 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Dharam Singh                                                                                     | (2891351N now JC-471884P)  | 10 Nov 2016/*01 Nov 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Nov 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Jhabar Mal Jat                                                                                   | (2892150F now JC-471885X)  | 21 Nov 2016/*01 Nov 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Nov 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Anil Kumar                                                                                       | (16016310X now JC-471886A) | 04 Jan 2017/*05 Nov 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 <sup>th</sup> Nov 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Dambar Singh                                                                                     | (2889876Y now JC-471887H)  | 03 Jan 2017/*29 Nov 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 <sup>th</sup> Nov 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub/Clk Chhatra Pal Singh                                                                            | (2891121A now JC-471888L)  | 01 Dec 2016              |
| Nb Sub Jitendra Singh                                                                                   | (2889487Y now JC-471889N)  | 05 Dec 2016/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Sube Singh                                                                                       | (2889548L now JC-471890H)  | 05 Dec 2016/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Raghbendra Singh Bhadoriya                                                                       | (2890348F now JC-471891L)  | 04 Jan 2017/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Devi Singh Shekhawat                                                                             | (2889229Y now JC-471892N)  | 05 Dec 2016/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Jaiveer Singh                                                                                    | (16017474A now JC-471893W) | 28 Dec 2016/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Rajendra Singh                                                                                   | (2890052H now JC-471894Y)  | 04 Jan 2017/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Ramesh Kumar Singh                                                                               | (2890808X now JC-471895F)  | 30 Dec 2016/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Jale Singh                                                                                       | (2891353Y now JC-471896K)  | 28 Dec 2016/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |
| Nb Sub Daleep Singh                                                                                     | (2890681A now JC-471897M)  | 01 Dec 2016              |
| Nb Sub Ghamanda Ram Gorasiya                                                                            | (2892336L now JC-471898P)  | 01 Dec 2016              |
| Nb Sub Davender Kumar                                                                                   | (2892174L now JC-471899X)  | 28 Dec 2016/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                            |                          |

|                                                                                                         |                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nb Sub Promod Singh                                                                                     | (2891789K now JC-471900F) | 04 Jan 2017/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Sawai Singh                                                                                      | (2891816H now JC-471901K) | 04 Jan 2017/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Om Parkash                                                                                       | (2891233A now JC-471902M) | 01 Dec 2016              |
| Nb Sub Sumer Singh Rathore                                                                              | (2893117W now JC-471903P) | 01 Dec 2016              |
| Nb Sub Rajiv Kumar                                                                                      | (2890770Y now JC-471904X) | 05 Dec 2016/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Rajesh Singh                                                                                     | (2890933F now JC-471905A) | 28 Dec 2016/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Ajay Kumar Singh                                                                                 | (2891375X now JC-471906H) | 02 Jan 2017/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Mahaveer Singh                                                                                   | (2892273N now JC-471907L) | 11 Dec 2016/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Hukam Singh                                                                                      | (2891786W now JC-471908N) | 05 Dec 2016/*01 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Malkhan Singh                                                                                    | (3995027Y now JC-471909W) | 03 Jan 2017/*08 Dec 2016 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 <sup>th</sup> Dec 2016 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub (RT) Sandeep Kumar                                                                               | (471910L now JC-471910L)  | 24 Dec 2016              |
| Nb Sub/Clk Ram Swaroop                                                                                  | (2891127F now JC-471911N) | 02 Jan 2017/*01 Jan 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 <sup>st</sup> Jan 2017 without effect on pay & allces)  |                           |                          |
| Nb Sub/Clk Dinesh Kumar                                                                                 | (2891128K now JC-471912W) | 01 Jan 2017              |
| Nb Sub/Clk Arvind Kumar                                                                                 | (2891134X now JC-471913Y) | 28 Jan 2017/*01 Jan 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 <sup>st</sup> Jan 2017 without effect on pay & allces)  |                           |                          |
| Nb Sub/Clk Ram Ekbal Singh                                                                              | (2891163M now JC-471914F) | 02 Jan 2017/*01 Jan 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 <sup>st</sup> Jan 2017 without effect on pay & allces)  |                           |                          |
| Nb Sub Chandr Vosh                                                                                      | (2889976K now JC-471915K) | 28 Jan 2017/*01 Jan 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jan 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Krishan Kumar                                                                                    | (3995547K now JC-471916M) | 04 Feb 2017/*01 Jan 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jan 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Bhoop Singh                                                                                      | (2889529A now JC-471917P) | 20 Jan 2017/*01 Jan 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jan 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Gurnail Singh                                                                                    | (3996310Y now JC-471918X) | 04 Feb 2017/*01 Jan 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jan 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Dinesh Kumar                                                                                     | (8034696A now JC-471919A) | 02 Jan 2017/*01 Jan 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jan 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Shree Ram Maharia                                                                                | (2892470W now JC-471920P) | 28 Jan 2017/*01 Jan 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jan 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Narendra Kumar                                                                                   | (2891424P now JC-471921X) | 31 Jan 2017/*01 Jan 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jan 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Kuldeep Singh                                                                                    | (2891903H now JC-471922A) | 28 Jan 2017/*01 Jan 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Jan 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Ramvir Singh                                                                                     | (2890040N now JC-471923H) | 15 Feb 2017/*08 Jan 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 <sup>th</sup> Jan 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |

|                                                                                                         |                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nb Sub Hem Raj                                                                                          | (2889576X now JC-471924L) | 01 Mar 2017/*09 Jan 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 <sup>th</sup> Jan 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Madan Singh                                                                                      | (2888685X now JC-471925N) | 02 Feb 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Jagbir Singh                                                                                     | (2889510F now JC-471926W) | 10 Feb 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Bhanwar Singh                                                                                    | (2889758L now JC-471927Y) | 02 Feb 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Mahendra Singh                                                                                   | (2889821P now JC-471928F) | 02 Feb 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Krishan Kumar                                                                                    | (2890301W now JC-471929K) | 11 Feb 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Om Parkash                                                                                       | (2890060F now JC-471930Y) | 07 Feb 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Jugendra Singh                                                                                   | (2889131L now JC-471931F) | 16 Feb 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Mandroop                                                                                         | (2889983A now JC-471932K) | 06 Feb 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Bansh Raj Singh                                                                                  | (2889835P now JC-471933M) | 06 Feb 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Amara Ram                                                                                        | (2890091F now JC-471934P) | 07 Feb 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Dalip Singh                                                                                      | (2889034N now JC-471935X) | 01 Feb 2017              |
| Nb Sub Asivney Kumar Singh                                                                              | (3996018K now JC-471936A) | 04 Feb 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Hardeep Kumar                                                                                    | (2889910N now JC-471937H) | 01 Mar 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Mohammad Samsher                                                                                 | (2889879M now JC-471938L) | 03 Mar 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Firoz Ahmad Khan                                                                                 | (2890100X now JC-471939N) | 03 Mar 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Mahendra Singh                                                                                   | (3996065F now JC-471940H) | 04 Feb 2017/*01 Feb 2017 |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 <sup>st</sup> Feb 2017 without effect on pay & allces) |                           |                          |
| Nb Sub Jai Bhagwan                                                                                      | (2889419L now JC-471941L) | 01 Feb 2017              |

T. D. PRASHANTH RAO  
Under Secretary

#### ARMY BRANCH

No. 278, dated 28th November 2017—The President is pleased to make the following promotion :—

#### REGULAR ARMY

#### AOC RECORDS

To be Nb Sub

|                                                                                                |      |                  |                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------------|-------------|
| HAV                                                                                            | (AT) | DHARMENDRA SINGH | (No 6939173P Now JC732465A) | 12 May 2016 |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB SUB wef 01/03/2016 without effect on pay and allowances) |      |                  |                             |             |
| HAV                                                                                            | (AT) | SANJAY THAKUR    | (No 6939083N Now JC732466H) | 18 Jul 2016 |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB SUB wef 01/06/2016 without effect on pay and allowances) |      |                  |                             |             |
| HAV                                                                                            | (AT) | TAMAL DAS        | (No 6938818A Now JC732467L) | 01 Jul 2016 |

|     |         |                             |                             |             |
|-----|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| HAV | (AT)    | TRILOK CHAND SHRI RAM CHAND | (No 6940014K Now JC732468N) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (AT)    | ASHOK KUMAR                 | (No 6938830F Now JC732469W) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (AT)    | NARESH KUMAR                | (No 6938833P Now JC732470L) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (AT)    | LACHHMAN                    | (No 6938846M Now JC732471N) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (AT)    | JABAHAR LAL RAM             | (No 6939231N Now JC732472W) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (AT)    | GURVINDER SINGH             | (No 6939299P Now JC732473Y) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (AT)    | VIDYA NANDAN PRASAD         | (No 6940117H Now JC732474F) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (AT)    | PARMOD KUMAR MISHRA         | (No 6940206F Now JC732475K) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (AT)    | SUDHIR KUMAR                | (No 6940207K Now JC732476M) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (AT)    | RAKESH KUMAR SHARMA         | (No 6940253Y Now JC732477P) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (AT)    | AMAR NATH SHARMA            | (No 6940260P Now JC732478X) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKSD) | ASIS BERA                   | (No 6938259F Now JC732479A) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKSD) | SV SRINATHAN                | (No 6938278M Now JC732480P) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKSD) | RAKESH KUMAR                | (No 6944023H Now JC732481X) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKSD) | KRISHNA PRATAP SINGH        | (No 6938184P Now JC732482A) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKSD) | RAMESH KUMAR GEDELA         | (No 6938204X Now JC732483H) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKSD) | VIJAY PRAKASH               | (No 6938293F Now JC732484L) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKSD) | OUM PRAKASH                 | (No 6938298A Now JC732485N) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKSD) | NALRAJ SINGH                | (No 6938314M Now JC732486W) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKSD) | RABINDRA KUMAR PRAHARAJ     | (No 6938248P Now JC732487Y) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKSD) | SANJOY BISWAS               | (No 6938257W Now JC732488F) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | BULU SETHY                  | (No 6936485A Now JC732489K) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | PUSHPENDRA SINGH            | (No 6936487L Now JC732490Y) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | HARSHPATI DOBRIYAL          | (No 6936494F Now JC732491F) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | PUSHPENDRA SINGH            | (No 6936495K Now JC732492K) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | BHUPENDER SINGH RANA        | (No 6936496M Now JC732493M) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | SURESH KUMAR SHARMA         | (No 6936498X Now JC732494P) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | SURJIT SINGH                | (No 6936509Y Now JC732495X) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | AJAY KUMAR SINGH            | (No 6936513F Now JC732496A) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | NARESH YADAV                | (No 6936521A Now JC732497H) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | LOKESH THAKUR               | (No 6936524N Now JC732498L) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | MUKESH KUMAR                | (No 6936510N Now JC732499N) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | JHON KENNEDY                | (No 6936515M Now JC732500X) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | JITENDER KUMAR              | (No 6936525W Now JC732501A) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | SATYA DEV                   | (No 6936531K Now JC732502H) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | JITENDRA KUMAR SINGH        | (No 6936532M Now JC732503L) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | SHISH RAM                   | (No 6936534X Now JC732504N) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | PRADEESH CK                 | (No 6936538N Now JC732505W) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | DEEPAK G                    | (No 6936541N Now JC732506Y) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | PUSHKAR SINGH               | (No 6936545K Now JC732507F) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | MITHILESH KUMAR CHOUDHARY   | (No 6934737H Now JC732508K) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | RAM LAL                     | (No 6936633A Now JC732509M) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | LAKHAN LAL                  | (No 6936645P Now JC732510F) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | SUMER SINGH                 | (No 6936655Y Now JC732511K) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | LAKSHMAN CHANDRA SARKAR     | (No 6936657K Now JC732512M) | 01 Jul 2016 |
| HAV | (CLKIM) | JAGPAL SINGH                | (No 6936689M Now JC732513P) | 01 Jul 2016 |

|                                                                                                |            |                                   |                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | BAAL CHAND                        | (No 6936690F Now JC732514X) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | DEEPAK DUBEY                      | (No 6936696H Now JC732515A) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | YADAV VIMAL PRAKASH NAKCHHED      | (No 6934444X Now JC732516H) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | SURESH KUMAR                      | (No 6934569P Now JC732517L) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | KIRAN KISHOR SINGH                | (No 6935524F Now JC732518N) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | RAM KUMAR SINGH                   | (No 6935814Y Now JC732519W) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | KULDEEP CHANDRA                   | (No 6935949A Now JC732520L) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | LILADHAR JOSHI                    | (No 6935960Y Now JC732521N) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTMT)    | RAM KEWAL                         | (No 6936477F Now JC732522W) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTMT)    | YOGANDER KUMAR                    | (No 6936938A Now JC732523Y) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTMT)    | LOKESH KUMAR                      | (No 6936943L Now JC732524F) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTMT)    | AMRAT LAL                         | (No 6936944N Now JC732525K) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTAMN)   | SHIV SHANKAR SINGH                | (No 6939501X Now JC732526M) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTAMN)   | BALBIR SHARMA                     | (No 6940022H Now JC732527P) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTAMN)   | JAMAN SINGH                       | (No 6940035A Now JC732528X) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTAMN)   | PRADIP KUMAR                      | (No 6940057Y Now JC732529A) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTAMN)   | PANDIT HARE RAM SHRI SATY NARAYAN | (No 6938811W Now JC732530P) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTGS&C)  | K S FAROOK                        | (No 6933719N Now JC732531X) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTGS&C)  | DEBASHIS MANDAL                   | (No 6932885P Now JC732532A) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTSIG)   | RABADA RAGHUNATH                  | (No 6934014N Now JC732533H) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTWEP)   | NARENDER SINGH THAKUR             | (No 6934075L Now JC732534L) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTWEP)   | DES RAJ                           | (No 6934078Y Now JC732535N) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTENGR)  | BALWANT SINGH                     | (No 6934518F Now JC732536W) | 18 Jul 2016 |
| *(Granted Seniority in the rank of NB SUB wef 01.06.2016 without effect on pay and allowances) |            |                                   |                             |             |
| HAV                                                                                            | (SKTAVN)   | SACHIN KUMAR                      | (No 6942636K Now JC732537Y) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHT)      | VB KULLAI SWAMY                   | (No 6932013M Now JC732538F) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHT)      | VIVEKANAND                        | (No 6932265Y Now JC732539K) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (DVRMT)    | RAMKUMAR SINGH                    | No 6934425M Now JC732540Y)  | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (DVRSPLEH) | RAKESH KUMAR                      | (No 6934426P Now JC732541F) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHGD)     | SURYA BAHADUR THAPA               | (No 6934845M Now JC732542K) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHGD)     | PRAMOD SINGH                      | (No 6934848A Now JC732543M) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHGD)     | SUSHIL KUMAR ARORA                | (No 6934849H Now JC732544P) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHGD)     | KAILASH NATH N                    | (No 6934850X Now JC732545X) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHGD)     | DILIP KUMAR                       | (No 6934851A Now JC732546A) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHGD)     | G RAMACHANDRAN                    | (No 6934857F Now JC732547H) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHGD)     | C KUMAR                           | (No 6934858K Now JC732548L) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | AWADHESH SINGH RATHOUR            | (No 6936266Y Now JC732549N) | 20 Jul 2016 |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB SUB wef 01/06/2016 without effect on pay and allowances) |            |                                   |                             |             |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)    | KARAN SINGH                       | (No 6937960X Now JC732550H) | 01 Aug 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTAMN)   | DEVENDRA KUMAR SINGH              | (No 6939947M Now JC732551L) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTGS&C)  | HARI OM SINGH                     | (No 6933672N Now JC732552N) | 01 Jul 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)    | SUKHPAL NAGAR                     | (No 6938699P Now JC732553W) | 01 Aug 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)    | BHOYAR YOGESH WAMAN RAO           | (No 6938703M Now JC732554Y) | 01 Aug 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)    | CHARANJIT SINGH                   | (No 6938729F Now JC732555F) | 01 Aug 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)    | SHEWALE SUNIL LAXMAN              | (No 6938732F Now JC732556K) | 01 Aug 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)    | PAWAR RAMAKANT PRITVIRAJ          | (No 6938742L Now JC732557M) | 01 Aug 2016 |

|                                                                                                |           |                              |                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| HAV                                                                                            | (CLKSD)   | PAWAR SANTOSH HARI BHAU      | (No 6938696F Now JC732558P) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)   | MANOJ KUMAR PANDEY           | (No 6938751M Now JC732559X) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | DEBENDRA KUMAR LENKA         | (No 6936004H Now JC732560M) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | INDRA DEO YADAV              | (No 6936227A Now JC732561P) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | RAM AVTAR DIWAKAR            | (No 6936319M Now JC732562X) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | JAMIL HUSSAIN                | (No 6936346W Now JC732563A) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | BABULAL YADAV                | (No 6936536H Now JC732564H) | 13Aug 2016  |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB SUB wef 01/08/2016 without effect on pay and allowances) |           |                              |                             |             |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | MANGAL SINGH                 | (No 6936693P Now JC732565L) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | PARMAR PK ATMARAM            | (No 6936766W Now JC732566N) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | PRADHUMAN PRASAD             | (No 6936802W Now JC732567W) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | VISHNU KUMAR                 | (No 6936803Y Now JC732568Y) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | SUBHASHIS GHOSH              | (No 6936816W Now JC732569F) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | SAJU CC                      | (No 6936820Y Now JC732570W) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | PRAFULLA KUMAR BISWAL        | (No 6936825X Now JC732571Y) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | DIPAK KUMAR MANDAL           | (No 6936839X Now JC732572F) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | SUNIL CHAUDHARI              | (No 6936840M Now JC732573K) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | ABHAY KUMAR TANTI            | (No 6936852F Now JC732574M) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | SWAPAN DUTTA                 | (No 6936887X Now JC732575P) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | MANOJ KUMAR SINGH            | (No 6936921M Now JC732576X) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | YESH PAL SINGH               | (No 6935696W Now JC732577A) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | NARAYAN KUMAR SHUKLA         | (No 6935947P Now JC732578H) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | YOGESH KUMAR                 | (No 6935950P Now JC732579L) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | VINOD KUMAR                  | (No 6936527F Now JC732580A) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | KASHYAP KUMAR                | (No 6936958N Now JC732581H) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (SKTAMN)  | MASKE YOGESH DEORAO          | (No 6939354A Now JC732582L) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (SKTGS&C) | BHAB NATH JHA                | (No 6933599A Now JC732583N) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (SKTSIG)  | RK SARAVANA KUMAR            | (No 6933105L Now JC732584W) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (SKTWEP)  | DAYASHANKAR YADVA            | (No 6934084M Now JC732585Y) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (AT)      | RANDHIR KUMAR                | (No 6940264L Now JC732586F) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | PRABAL PRATAP SINGH          | (No 6936320F Now JC732587K) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | UMED KUMAR DHANKA            | (No 6936699W Now JC732588M) | 01Aug 2016  |
| HAV                                                                                            | (AT)      | MD JAMSEDH ALI SK            | (No 6940533M Now JC732589P) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)   | ARVIND KUMAR SINGH           | (No 6938755H Now JC732590K) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)   | TIWARI PREM SAGAR            | (No 6938760N Now JC732591M) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)   | ASHOK KUMAR SINGH            | (No 6938773L Now JC732592P) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)   | PRABHAKAR DWIVEDI            | (No 6938781K Now JC732593X) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)   | MANPHOOL SINGH               | (No 6938792W Now JC732594A) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | KAMAL THAPA                  | (No 6936947F Now JC732595H) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | RAJENDRA KUMAR               | (No 6936948K Now JC732596L) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | IRFAN AHAMAD                 | (No 6936954X Now JC732597N) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | BHUPENDRA SINGH RATHORE      | (No 6936977Y Now JC732598W) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | BIR SINGH YADAV              | (No 6936979K Now JC732599Y) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | GUJAR DAYANAND MUKUND        | (No 6936980Y Now JC732600H) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | PATIL RAJESH KUMAR MURLIDHAR | (No 6936762A Now JC732601L) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | MANE SANTOSH KUMAR BHAGVAN   | (No 6936765N Now JC732602N) | 01 Sep 2016 |

|                                                                                                |           |                                   |                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | DEVANAND SHUKLA                   | (No 6936851Y Now JC732603W) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | TILAK DHARI SINGH                 | (No 6936949M Now JC732604Y) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | GUNJAL CHANDU HARI BHAI           | (No 6936987H Now JC732605F) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | DILIP KUMAR SINGH                 | (No 6936999X Now JC732606K) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | SHEESH RAM                        | (No 6937003M Now JC732607M) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | FAGARE SURESH TUKARAM             | (No 6937010H Now JC732608P) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTSIG)  | RAJENDRA SINGH                    | (No 6933935F Now JC732609X) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTSIG)  | CHANDRA PAL SINGH                 | (No 6933938P Now JC732610M) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTGS&C) | AJOY KUMAR TIWARI                 | (No 6933688Y Now JC732611P) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTMT)   | BHOPENDRA SINGH SIROHI            | (No 6936961N Now JC732612X) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTAMN)  | SANJAY KUAMR                      | (No 6939423L Now JC732613A) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTAMN)  | RAJESH KUMAR SRIVASTAVA           | (No 6938943K Now JC732614H) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (DVRMT)   | PASSANG SHERPA                    | (No 6934452W Now JC732615L) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (DVRMT)   | HIRDESH KUMAR                     | (No 6934456M Now JC732616N) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHGD)    | RAM LAL                           | (No 6934866H Now JC732617W) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHT)     | MUKESH KUMAR YADAV                | (No 6932277N Now JC732618Y) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHT)     | MAKHAN LAL GUPTA                  | (No 6932320K Now JC732619F) | 01 Sep 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)   | VISHUNU DAYAL VERMA               | (No 6938801M Now JC732620W) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)   | ARVIND KUMAR                      | (No 6938806L Now JC732621Y) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)   | SUMANTA MONDAL                    | (No 6938826Y Now JC732622F) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)   | BIMAL KUMAR                       | (No 6938832M Now JC732623K) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)   | DILIP KUMAR SAMAL                 | (No 6938835A Now JC732624M) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | PRONAB DAS                        | (No 6936392L Now JC732625P) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | PARVEEN KUMAR SINGH               | (No 6937024H Now JC732626X) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | BATHIYA UMESH KUMAR<br>DHANJ BHAJ | (No 6937037A Now JC732627A) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | SUJIT KUMAR                       | (No 6937043N Now JC732628H) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | SHINDE VASANT NARAYAN             | (No 6937059Y Now JC732629L) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | BRIJ RAJ PRASAD                   | (No 6937062Y Now JC732630A) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | SUKHDEV SINGH                     | (No 6937072H Now JC732631H) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | SUKHDEV SINGH                     | (No 6937077F Now JC732632L) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | KHEM RAJ                          | (No 6937116P Now JC732633N) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | RAJA RAM GURJAR                   | (No 6937124N Now JC732634W) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTMT)   | SHIV SHANKAR SINGH                | (No 6935393F Now JC732635Y) | 20 Oct 2016 |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB SUB wef 01/10/2016 without effect on pay and allowances) |           |                                   |                             |             |
| HAV                                                                                            | (SHGD)    | RAM SINGH YADAV                   | (No 6934883H Now JC732636F) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHT)     | SAKAL DEO KUMAR                   | (No 6932503A Now JC732637K) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHT)     | RAM PRAVESH SINGH                 | (No 6932504H Now JC732638M) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | YADAV RAMESH CHANDRA<br>MURLIDHAR | (No 6937006A Now JC732639P) | 05 Nov 2016 |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB SUB wef 01/10/2016 without effect on pay and allowances) |           |                                   |                             |             |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)   | LAL CHAND GUPTA                   | (No 6936951K Now JC732640K) | 01 Oct 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTMT)   | RASHID HUSAIN                     | (No 6936945W Now JC732641M) | 15 Oct 2016 |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB SUB wef 01/10/2016 without effect on pay and allowances) |           |                                   |                             |             |
| HAV                                                                                            | (TLR)     | NANDA BALLABH                     | (No 6936027K Now JC732642P) | 18 Oct 2016 |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB SUB wef 01/10/2016 without effect on pay and allowances) |           |                                   |                             |             |
| HAV                                                                                            | (AT)      | RANJIT KUMAR SINGH                | (No 6940540H Now JC732643X) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (AT)      | BRUNDABAN PATSANI                 | (No 6940565P Now JC732644A) | 01 Nov 2016 |

|                                                                                                |            |                                    |                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| HAV                                                                                            | (CLKSD)    | AMINUR ISLAM                       | (No 6938836H Now JC732645H) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)    | ANIRUDHA SWAIN                     | (No 6938850P Now JC732646L) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)    | RAMJI LAL                          | (No 6938853H Now JC732647N) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKSD)    | ASHUTOSH SINGH                     | (No 6938925F Now JC732648W) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | SHAJI VADAKKE<br>PUTHIYADATHIL     | (No 6937167H Now JC732649Y) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | DALBINDER SINGH SUMBRIA            | (No 6937169N Now JC732650N) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | NARENDRA SINGH PAL                 | (No 6937171L Now JC732651W) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | VIJAY KUMAR                        | (No 6937182X Now JC732652Y) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | PRADEED KUMAR KR                   | (No 6937185L Now JC732653F) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | BARANDA JAYA PRAKASH<br>SURJI BHAI | (No 6936760P Now JC732654K) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | KISHORE KUMAR R                    | (No 6936906X Now JC732655M) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | SURENDER SINGH TANWAR              | (No 6937013W Now JC732656P) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | RAM LAKHAN                         | (No 6937194M Now JC732657X) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | AMARJIT SINGH                      | (No 6937198H Now JC732658A) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | VIJAY KUMAR MOURYA                 | (No 6937253N Now JC732659H) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | R JEYA KUMAR                       | (No 6937274K Now JC732660X) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTSIG)   | DIN BANDHU                         | (No 6933993L Now JC732661A) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTMT)    | DEEPAK CHATURVEDI                  | (No 6936962W Now JC732662H) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTMT)    | MANOJ KUMAR                        | (No 6936946Y Now JC732663L) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTMT)    | SATYAVEER YADAV                    | (No 6934739N Now JC732664N) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTAMN)   | RANJIT SINGH SAINI                 | (No 6937637H Now JC732665W) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (SKTAMN)   | WAYADANDE DHANAJI<br>JAGANNATH     | (No 6940231A Now JC732666Y) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (DVRMT)    | SADAN SINGH                        | (No 6934457P Now JC732667F) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHGD)     | M PRABHU                           | (No 6934378A Now JC732668K) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHGD)     | RAM SUCHIT SAH                     | (No 6934889K Now JC732669M) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (SHT)      | ANAND SINGH                        | (No 6932565A Now JC732670F) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (PTRDECTR) | PS NAGARAJAN                       | (No 6935942W Now JC732671K) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (CLKIM)    | RAJA D                             | (No 6937161F Now JC732674X) | 28 Oct 2016 |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB SUB wef 01/10/2016 without effect on pay and allowances) |            |                                    |                             |             |
| HAV                                                                                            | (SKTGS&C)  | PODILI DEENABANDHU                 | (No 6931978X Now JC732675A) | 01 Nov 2016 |
| HAV                                                                                            | (AT)       | JITENDER PATIL                     | No 6940553A Now JC732676H)  | 01 Nov 2016 |

## ARMD CORPS RECORDS

To be Ris Maj

|                   |                          |                |             |
|-------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| RISALDAR (DVRAFV) | DHARMENDRA SINGH         | (No JC243094A) | 01/05/2017  |
| RISALDAR (DVRAFV) | TARAKESWARA RAO CHICHULA | (No JC243745L) | 01/03/2017  |
| RISALDAR (OPRAFV) | SUKHDEV SINGH ATHWAL     | (No JC243858N) | 01/07/2017  |
| RISALDAR (OPRAFV) | KULDEEP                  | (No JC244015M) | 01/09/2016  |
| RISALDAR (DVRAFV) | BIJENDRA PAL             | (No JC243969L) | 01/06/2017  |
| RISALDAR (CLKSD)  | HARISH KUMAR             | (No JC241671H) | *03/11/2016 |

\*(Granted Seniority in the Rank of RIS MAJ wef 01/11/2016 without effect on pay and allowances)

|                   |                   |                |            |
|-------------------|-------------------|----------------|------------|
| RISALDAR (OPRAFV) | ANGAD SINGH YADAV | (No JC243439W) | 01/05/2017 |
| RISALDAR (DVRAFV) | BIRENDRA KUMAR    | (No JC244248N) | 01/12/2016 |
| RISALDAR (DVRAFV) | SUKHVINDER SINGH  | (No JC243720Y) | 01/12/2016 |

|                   |                           |                |            |
|-------------------|---------------------------|----------------|------------|
| RISALDAR (DVRAFV) | SATISH KUMAR              | (No JC243568W) | 01/04/2017 |
| RISALDAR (DVRAFV) | N.AJIT KUMAR              | (No JC243971H) | 01/05/2017 |
| RISALDAR (GNRAFV) | SURINDER SINGH            | (No JC244308X) | 01/02/2017 |
| RISALDAR (CLKSD)  | RAKESH B                  | (No JC245278X) | 01/06/2017 |
| RISALDAR (CLKSD)  | BAHIWAL SANDEEP KISAN RAO | (No JC241739Y) | 01/04/2017 |
| RISALDAR (CLKSD)  | DALEEP SINGH              | (No JC244927L) | 01/06/2017 |
| RISALDAR (OPRAFV) | SUJAN SINGH               | (No JC244232H) | 01/05/2017 |
| RISALDAR (GNRAFV) | ANIL                      | (No JC243661X) | 01/05/2017 |
| RISALDAR (OPRAFV) | JAY PAL SINGH             | (No JC243746N) | 01/04/2017 |
| RISALDAR (DVRAFV) | SHYAM SUNDER SHARMA       | (No JC244400W) | 01/05/2017 |

## SPECIAL LIST

## ARMOURED CORPS

To be Substantive Risaldar Major (Religious Teacher)

|                   |             |              |             |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| Risaldar (Pandit) | Bishan Dass | (JC-235666F) | 01 Apr 2017 |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|

To be Substantive Risaldar

|                       |                  |                |             |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------|
| NB Risaldar (Granthi) | SUKHWINDER SINGH | (No JC241229X) | *05/01/2017 |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------|

\*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/09/2016 without effect on pay and allowances)

|                      |                       |                |             |
|----------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Nb Risaldar (Pandit) | SHIV SHANKAR TRIPATHI | (No JC241401N) | *24/02/2017 |
|----------------------|-----------------------|----------------|-------------|

\*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/02/2017 without effect on pay and allowances)

|                      |                        |                |            |
|----------------------|------------------------|----------------|------------|
| Nb Risaldar (Pandit) | RAJENDRA PRASAD MISHRA | (No JC241722L) | 01/07/2017 |
|----------------------|------------------------|----------------|------------|

|                      |                           |                |            |
|----------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Nb Risaldar (Pandit) | RAMESHWAR PRASAD TRIPATHI | (No JC241721H) | 01/07/2017 |
|----------------------|---------------------------|----------------|------------|

To be Ris

|                      |                    |                |            |
|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| NB RISALDAR (OPRAFV) | SANJAY KUMAR YADAV | (No JC245529W) | 01/08/2017 |
|----------------------|--------------------|----------------|------------|

|                      |                   |                |            |
|----------------------|-------------------|----------------|------------|
| NB RISALDAR (GNRAFV) | AJEET SINGH YADAV | (No JC245884N) | 01/08/2017 |
|----------------------|-------------------|----------------|------------|

|                     |         |                |            |
|---------------------|---------|----------------|------------|
| NB RISALDAR (CLKSD) | SEKAR C | (No JC246445P) | 01/09/2017 |
|---------------------|---------|----------------|------------|

|                      |                |                |             |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|
| NB RISALDAR (OPRAFV) | YASHWANT SINGH | (No JC246071K) | *17/08/2017 |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|

\*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/07/2017 without effect on pay and allowances)

|                      |         |                |            |
|----------------------|---------|----------------|------------|
| NB RISALDAR (DVRAFV) | RAM DAS | (No JC245570M) | 01/06/2017 |
|----------------------|---------|----------------|------------|

|                      |              |                |            |
|----------------------|--------------|----------------|------------|
| NB RISALDAR (DVRAFV) | LAXMAN SINGH | (No JC245495N) | 01/08/2017 |
|----------------------|--------------|----------------|------------|

|                      |              |                |            |
|----------------------|--------------|----------------|------------|
| NB RISALDAR (DVRAFV) | NARAYAN JENA | (No JC246242L) | 01/08/2017 |
|----------------------|--------------|----------------|------------|

|                      |                 |                |            |
|----------------------|-----------------|----------------|------------|
| NB RISALDAR (DVRAFV) | MUNESHWAR SINGH | (No JC245231M) | 01/08/2017 |
|----------------------|-----------------|----------------|------------|

|                      |               |                |             |
|----------------------|---------------|----------------|-------------|
| NB RISALDAR (OPRAFV) | GOLAM MUSTAFA | (No JC245934N) | *05/08/2017 |
|----------------------|---------------|----------------|-------------|

\*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/08/2017 without effect on pay and allowances)

|                      |               |                |            |
|----------------------|---------------|----------------|------------|
| NB RISALDAR (OPRAFV) | K MOHAN KUMAR | (No JC245540P) | 07/08/2017 |
|----------------------|---------------|----------------|------------|

|                      |                        |                |            |
|----------------------|------------------------|----------------|------------|
| NB RISALDAR (DVRAFV) | PURSHOTTAM DASS SHUKLA | (No JC246603Y) | 01/04/2017 |
|----------------------|------------------------|----------------|------------|

|                      |                    |                |            |
|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| NB RISALDAR (DVRAFV) | VIJAYA SHYAM SINGH | (No JC245717X) | 01/03/2017 |
|----------------------|--------------------|----------------|------------|

|                      |               |                |             |
|----------------------|---------------|----------------|-------------|
| NB RISALDAR (DVRAFV) | KHEMPAL SINGH | (No JC244954P) | *12/02/2017 |
|----------------------|---------------|----------------|-------------|

\*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/01/2017 without effect on pay and allowances)

|                      |                 |                |             |
|----------------------|-----------------|----------------|-------------|
| NB RISALDAR (DVRAFV) | VEERENDER SINGH | (No JC245337Y) | *05/06/2015 |
|----------------------|-----------------|----------------|-------------|

\*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/06/2015 without effect on pay and allowances)

|                                                                                             |                        |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| NB RISALDAR(GNRAFV)                                                                         | THIRUNAVUKKARASU       | (No JC244249W) | *01/01/2015 |
| *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/11/2014 without effect on pay and allowances) |                        |                |             |
| NB RISALDAR(DVRAFV)                                                                         | JAIVEER SINGH          | (No JC246145N) | *12/06/2015 |
| *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 05/05/2015 without effect on pay and allowances) |                        |                |             |
| NB RISALDAR(DVRAFV)                                                                         | KGVV KRISHNA           | (No JC244786F) | *02/12/2013 |
| *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 08/10/2013 without effect on pay and allowances) |                        |                |             |
| NB SUB(DVRAFV)                                                                              | RADHA MOHAN SINGH      | (No JC245334L) | *09/01/2015 |
| *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/01/2015 without effect on pay and allowances) |                        |                |             |
| NB RISALDAR(CLKSD)                                                                          | DHARMA RAJ DWIVEDY     | (No JC246444M) | *16/06/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/06/2017 without effect on pay and allowances) |                        |                |             |
| NB RISALDAR (DVRAFV)                                                                        | SURENDRA KUMAR         | (No JC246345K) | 01/07/2017  |
| NB RISALDAR (OPRAFV)                                                                        | RAJESH KUMAR           | (No JC246141X) | *11/05/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/05/2017 without effect on pay and allowances) |                        |                |             |
| NB RISALDAR (DVRAFV)                                                                        | ANIL KUMAR KV          | (No JC245917N) | 01/06/2017  |
| NB RISALDAR (GNRAFV)                                                                        | SATWANT SINGH          | (No JC245647K) | 01/07/2017  |
| NB RISALDAR (OPRAFV)                                                                        | SATYENDRA KUMAR        | (No JC245792F) | 01/07/2017  |
| NB RISALDAR (OPRAFV)                                                                        | PABITRA GOGOI          | (No JC245508A) | *03/05/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/05/2017 without effect on pay and allowances) |                        |                |             |
| NB RISALDAR (OPRAFV)                                                                        | DASARATHAN A           | (No JC245205L) | *15/07/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/07/2017 without effect on pay and allowances) |                        |                |             |
| NB RISALDAR (DVRAFV)                                                                        | SUKHBIR SINGH          | (No JC245577W) | *04/06/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/06/2017 without effect on pay and allowances) |                        |                |             |
| NB RISALDAR (DVRAFV)                                                                        | GURJANT SINGH          | (No JC245287Y) | 01/04/2017  |
| NB RISALDAR (DVRAFV)                                                                        | SHIV PRATAP SINGH      | (No JC245893P) | 01/06/2017  |
| NB RISALDAR (OPRAFV)                                                                        | HARMIT SINGH           | (No JC245346A) | 01/05/2017  |
| NB RISALDAR (DVRAFV)                                                                        | PITABASA SAHOO         | (No JC245627W) | *19/06/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/06/2017 without effect on pay and allowances) |                        |                |             |
| NB RISALDAR (DVRAFV)                                                                        | ARJALA DHARMA RAO      | (No JC245398W) | *19/06/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 03/04/2017 without effect on pay and allowances) |                        |                |             |
| NB RISALDAR (DVRAFV)                                                                        | K VENKATESAN           | (No JC245029Y) | 01/04/2017  |
| NB RISALDAR (GNRAFV)                                                                        | AJIT BAHADUR SINGH     | (No JC245892M) | 01/06/2017  |
| NB RISALDAR (DVRAFV)                                                                        | THAKOR BHALAJI JAVANJI | (No JC245116M) | *08/04/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/04/2017 without effect on pay and allowances) |                        |                |             |
| NB RISALDAR (DVRAFV)                                                                        | SUSHIL SINGH           | (No JC245316H) | 01/04/2017  |
| NB RISALDAR (DVRAFV)                                                                        | BIMAN KUMAR JANA       | (No JC245781P) | 01/07/2017  |
| NB RISALDAR (DVRAFV)                                                                        | KAMAL DEO PRASAD       | (No JC245699A) | *08/02/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 08/12/2016 without effect on pay and allowances) |                        |                |             |
| NB RISALDAR (DVRAFV)                                                                        | JAGJEET SINGH          | (No JC245472M) | *27/06/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/06/2017 without effect on pay and allowances) |                        |                |             |

## To be Nb Ris

|             |               |                              |             |
|-------------|---------------|------------------------------|-------------|
| DFR(GNRAFV) | UDDHAB LASKAR | (No 15469808W Now JC247546P) | *29/08/2017 |
|-------------|---------------|------------------------------|-------------|

\*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 02/08/2017 without effect on pay and allowances)

|              |                 |                              |            |
|--------------|-----------------|------------------------------|------------|
| DFR (DVRAFV) | CHANDER SHEKHAR | (No 15470454L Now JC247532P) | 01/09/2017 |
|--------------|-----------------|------------------------------|------------|

|              |             |                              |            |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|
| DFR (OPRAFV) | SUNIL KUMAR | (No 15470455N Now JC247577P) | 01/09/2017 |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|

|             |              |                              |            |
|-------------|--------------|------------------------------|------------|
| DFR (CLKSD) | PRAMOD KUMAR | (No 15471365Y Now JC247544K) | 01/09/2017 |
|-------------|--------------|------------------------------|------------|

|              |                     |                              |            |
|--------------|---------------------|------------------------------|------------|
| DFR (DVRAFV) | MUTHUMULA R.KRISHNA | (No 15467554L Now JC247550X) | 01/09/2017 |
|--------------|---------------------|------------------------------|------------|

REDDY

|              |               |                              |            |
|--------------|---------------|------------------------------|------------|
| DFR (OPRAFV) | MD BELALUDDIN | (No 15464199N Now JC247555W) | 01/09/2017 |
|--------------|---------------|------------------------------|------------|

|              |               |                              |            |
|--------------|---------------|------------------------------|------------|
| DFR (GNRAFV) | G BALAMURUGAN | (No 15465918N Now JC247523N) | 01/09/2017 |
|--------------|---------------|------------------------------|------------|

|              |           |                              |            |
|--------------|-----------|------------------------------|------------|
| DFR (DVRAFV) | VIJAY PAL | (No 15466074P Now JC247539Y) | 01/09/2017 |
|--------------|-----------|------------------------------|------------|

|              |            |                              |            |
|--------------|------------|------------------------------|------------|
| DFR (GNRAFV) | GYAN CHAND | (No 15466264F Now JC247549H) | 01/09/2017 |
|--------------|------------|------------------------------|------------|

|          |             |                              |            |
|----------|-------------|------------------------------|------------|
| DFR(SKT) | SUNIL KUMAR | (No 15468740N Now JC247548A) | 01/09/2017 |
|----------|-------------|------------------------------|------------|

|              |                    |                              |            |
|--------------|--------------------|------------------------------|------------|
| DFR (OPRAFV) | JABAR SINGH PANWAR | (No 15468775K Now JC247537N) | 01/08/2017 |
|--------------|--------------------|------------------------------|------------|

|              |                 |                              |            |
|--------------|-----------------|------------------------------|------------|
| DFR (DVRAFV) | RAMESHWAR SINGH | (No 15469462X Now JC247545M) | 01/09/2017 |
|--------------|-----------------|------------------------------|------------|

|              |                |                              |             |
|--------------|----------------|------------------------------|-------------|
| DFR (DVRAFV) | MAHENDRA KUMAR | (No 15469842W Now JC247529P) | *08/08/2017 |
|--------------|----------------|------------------------------|-------------|

\*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 23/07/2017 without effect on pay and allowances)

|              |          |                              |            |
|--------------|----------|------------------------------|------------|
| DFR (DVRAFV) | G RAJESH | (No 15472528N Now JC247530K) | 01/09/2017 |
|--------------|----------|------------------------------|------------|

|              |                  |                              |            |
|--------------|------------------|------------------------------|------------|
| DFR (GNRAFV) | SUKHWINDER SINGH | (No 15473269H Now JC247541W) | 01/09/2017 |
|--------------|------------------|------------------------------|------------|

|              |              |                              |            |
|--------------|--------------|------------------------------|------------|
| DFR (DVRAFV) | MUKESH KUMAR | (No 15466719M Now JC247531M) | 01/09/2017 |
|--------------|--------------|------------------------------|------------|

|              |             |                              |            |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|
| DFR (DVRAFV) | KABUL SINGH | (No 15466800Y Now JC247527K) | 01/08/2017 |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|

|              |                  |                              |            |
|--------------|------------------|------------------------------|------------|
| DFR (DVRAFV) | DHARMENDRA KUMAR | (No 15468561N Now JC247547X) | 01/09/2017 |
|--------------|------------------|------------------------------|------------|

|              |             |                              |             |
|--------------|-------------|------------------------------|-------------|
| DFR (DVRAFV) | CHINNANDI J | (No 15464536X Now JC247576M) | *23/08/2017 |
|--------------|-------------|------------------------------|-------------|

\*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 02/07/2017 without effect on pay and allowances)

|              |           |                              |             |
|--------------|-----------|------------------------------|-------------|
| DFR (GNRAFV) | RAJ KUMAR | (No 15465837N Now JC247561K) | *15/08/2017 |
|--------------|-----------|------------------------------|-------------|

\*(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/08/2017 without effect on pay and allowances)

|             |             |                              |            |
|-------------|-------------|------------------------------|------------|
| DFR(GNRAFV) | GOPAL SINGH | (No 15469483N Now JC247488W) | 01/07/2017 |
|-------------|-------------|------------------------------|------------|

|              |             |                              |            |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|
| DFR (DVRAFV) | SHYAM ENGHI | (No 15469757N Now JC247491W) | 01/07/2017 |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|

|              |                      |                              |            |
|--------------|----------------------|------------------------------|------------|
| DFR (DVRAFV) | SANJAYA KUMAR BEHERA | (No 15470193H Now JC247543F) | 01/07/2017 |
|--------------|----------------------|------------------------------|------------|

|              |              |                              |            |
|--------------|--------------|------------------------------|------------|
| DFR (OPRAFV) | BALJIT SINGH | (No 15468500W Now JC247442N) | 01/06/2017 |
|--------------|--------------|------------------------------|------------|

|              |             |                              |            |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|
| DFR (OPRAFV) | SUNIL KUMAR | (No 15468272Y Now JC247499H) | 01/07/2017 |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|

|              |              |                              |            |
|--------------|--------------|------------------------------|------------|
| DFR (OPRAFV) | KISHOR REWAR | (No 15468371F Now JC247542Y) | 01/07/2017 |
|--------------|--------------|------------------------------|------------|

|              |          |                              |            |
|--------------|----------|------------------------------|------------|
| DFR (DVRAFV) | RAMESH M | (No 15468424P Now JC247500M) | 01/07/2017 |
|--------------|----------|------------------------------|------------|

|              |             |                              |            |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|
| DFR (GNRAFV) | ANISH KUMAR | (No 15468460A Now JC247519L) | 01/07/2017 |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|

|              |                |                              |            |
|--------------|----------------|------------------------------|------------|
| DFR (DVRAFV) | RAJINDER SINGH | (No 15467240K Now JC247525Y) | 01/07/2017 |
|--------------|----------------|------------------------------|------------|

|              |             |                              |            |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|
| DFR (GNRAFV) | VIJAY SINGH | (No 15467583A Now JC247486L) | 01/07/2017 |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|

|              |               |                              |            |
|--------------|---------------|------------------------------|------------|
| DFR (DVRAFV) | DIGAMBER NATH | (No 15466100L Now JC247507W) | 01/06/2017 |
|--------------|---------------|------------------------------|------------|

|              |         |                              |            |
|--------------|---------|------------------------------|------------|
| DFR (DVRAFV) | NEK RAM | (No 15466147W Now JC247434P) | 01/05/2017 |
|--------------|---------|------------------------------|------------|

|                                                                                                |                                       |                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|
| DFR (DVRAFV)                                                                                   | PRITAM SINGH                          | (No 15466635Y Now JC247506N) | *01/06/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 12/04/2017 without effect on pay and allowances) |                                       |                              |             |
| DFR (OPRAFV)                                                                                   | KRISHAN PAL SINGH                     | (No 15466896M Now JC247511Y) | 01/07/2017  |
| DFR (OPRAFV)                                                                                   | SHANKHWAR CHANDRA<br>SHEKHAR DHANIRAM | (No 15467221Y Now JC247487N) | 01/07/2017  |
| DFR (OPRAFV)                                                                                   | K RAMEN SINGHA                        | (No 15465045N Now JC247509F) | *19/06/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/06/2017 without effect on pay and allowances) |                                       |                              |             |
| DFR (DVRAFV)                                                                                   | SURESH KUMAR                          | (No 15465076N Now JC247510W) | 01/07/2017  |
| DFR (GNRAFV)                                                                                   | JANAK SINGH SOLANKI                   | (No 15465429H Now JC247490N) | 01/07/2017  |
| DFR (DVRAFV)                                                                                   | RANJEET KUMAR                         | (No 15465498Y Now JC247535H) | *21/06/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 05/04/2017 without effect on pay and allowances) |                                       |                              |             |
| DFR (DVRAFV)                                                                                   | KEWAL SINGH                           | (No 15466012P Now JC247524W) | *09/06/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/06/2017 without effect on pay and allowances) |                                       |                              |             |
| DFR (DVRAFV)                                                                                   | MANINATH SAHOO                        | (No 15466088P Now JC247433M) | 01/05/2017  |
| DFR (OPRAFV)                                                                                   | SATISH SINGH                          | (No 15463453A Now JC247498A) | 01/07/2017  |
| DFR (DVRAFV)                                                                                   | UTTAM SINGH BHADORIA                  | (No 15463990L Now JC247468H) | 01/06/2017  |
| DFR (GNRAFV)                                                                                   | SUDHIR KUMAR SINGH                    | (No 15464254Y Now JC247437H) | 01/06/2017  |
| DFR (DVRAFV)                                                                                   | K SIVA                                | (No 15464510H Now JC247552H) | *19/07/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01/07/2017 without effect on pay and allowances) |                                       |                              |             |
| DFR (DVRAFV)                                                                                   | INDRA SINGH                           | (No 15472249H Now JC247494K) | 01/06/2017  |
| DFR (DVRAFV)                                                                                   | SURINDER SINGH                        | (No 15471071L Now JC247503A) | 01/07/2017  |
| DFR (CLKSD)                                                                                    | BIREN RAY BAKSHI                      | (No 15471131P Now JC247450M) | 01/06/2017  |
| DFR (DVRAFV)                                                                                   | ROHTASH KUMAR                         | (No 15471997K Now JC247493F) | *19/06/2017 |
| *(Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 09/03/2017 without effect on pay and allowances) |                                       |                              |             |
| DFR (OPRAFV)                                                                                   | SREEJITH KUMAR T                      | (No 15472130Y Now JC247492Y) | 01/07/2017  |
| DFR (GNRAFV)                                                                                   | RAJENDRA SINGH                        | (No 15472185H Now JC247456N) | 01/06/2017  |

To be Naib Risaldar (RT)

|                       |              |             |
|-----------------------|--------------|-------------|
| SANTOSH KUMAR DWIVEDI | (JC-247059P) | 26 Sep 2015 |
| VINOD KUMAR           | (JC-247185F) | 01 Oct 2016 |
| DAVINDER SINGH        | (JC-247186K) | 01 Oct 2016 |
| MANEESH PATHAK        | (JC-247370P) | 27 May 2017 |
| DILEEP KUMAR SHUKLA   | (JC-247340X) | 11 Feb 2017 |
| RAHUL KUMAR TIWARI    | (JC-247187M) | 01 Oct 2016 |
| ADITYA KUMAR SHUKLA   | (JC-247339H) | 11 Feb 2017 |

ANURAG SHARMA  
Under Secretary

## ARMY BRANCH

No. 279, dated 29th November 2017—The President is pleased to permit the undermentioned officer to resign from Army Service, w.e.f. the date shown against his name under AI 15/79:—

## REGULAR ARMY

## ARMY DENTAL CORPS

## SHORT SERVICE COMMISSION

## RESIGNATION

| Personal No | Rank | Name                  | Date of resignation |
|-------------|------|-----------------------|---------------------|
| DS-12628P   | Capt | Aditya Rambhai Sharma | 12-08-2017 (FN)     |

KG KUMAR DEVAYYA

Brig

Dy DGDS (P)

## CORRIGENDUM

No. 280, dated 30<sup>th</sup> November 2017— In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 12 Nov 2016 under the heading REGULAR ARMY- ARMY DENTAL CORPS, PERMANENT COMMISSION sub heading Capt to be Maj in respect of the undermentioned officer :—

## REGULAR ARMY

## ARMY DENTAL CORPS

## PERMANENT COMMISSION

FOR : CAPT TO BE MAJ

| Pers No   | Name                     | Dt of prom to the rank of Maj |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| DR-10738L | Maj (Ms) Summerdeep Kaur | 28-03-2016                    |

READ : CAPT TO BE MAJ

| Pers No   | Name                     | Dt of prom to the rank of Maj |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| DR-10738L | Maj (Ms) Summerdeep Kaur | 28-09-2015                    |

KG KUMAR DEVAYYA

Brig

Dy DGDS (P)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.  
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in